

लक्ष्मी-नारायण (एडवांस कोर्स)

1.	चित्र का परिचय
2.	ल.ना. और राधा-कृष्ण में संबंध
3.	स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना
4.	सतयुगी दैवी स्वराज्य आपका ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है
5.	ल.ना. प्रकाश के वलय में और रा.कृ. सतयुगी दुनिया में
6.	ल.ना. का श्रृंगार
7.	संगमयुगी ल.ना. व सतयुगी ल.ना.
8.	ल.ना. का राज्यकाल- 'संवत् 1 से लेकर 2500 वर्ष'
9.	विश्वमहाराजन और सतयुगी महाराजन में अंतर
10.	संगमयुगी स्वर्ग / वैकुण्ठ
11.	स्वयंवरपूर्व महाराजकुमार श्री कृष्ण और महाराजकुमारी श्री राधे
12.	इसी जन्म में इसी शरीर से कंचन काया
13.	कंचनकाया बनने की प्रक्रिया
14.	फेल होने वाले राम-सीता को 16 कला सतयुगी रा.कृ. का दास-दासी बनना पड़ेगा?
15.	राधा-कृष्ण का जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म
16.	16 कला सतयुग में दृष्टि-योगबल से & पु.स्वर्णिम संगम में बच्चों की बुद्धि योगबल से पैदाइश
17.	सतयुग में अनेक संबंध नहीं होंगे
18.	सतयुग में जनरेशन कैसे बढ़ेगी?
19.	सतयुग का वर्णन
20.	10 वर्ष की घोषणा → भारत अर्थात् राम-सीता वाली आत्माओं के लिए
21.	10 वर्ष में विनाश की घोषणा

चित्र का परिचय

दिव्य साक्षात्कार के आधार से बनवाये गये 4 मुख्य चिलों में से यह ल.ना. का पुराना चित्र भी ब्रह्मा बाबा के समय में बनाया गया है। इसका प्रमाण यह है कि साक्षात्कार से जो मुख्य चार चित्र बनाये गये हैं, उनमें पहले वाले पुराने दो चिलों- लिमूर्ति और कल्पवृक्ष में सिर्फ ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा है और सन् 1965/66 में बने दो चिलों- लक्ष्मी-नारायण व सीढ़ी में ‘प्रजापिता’ शब्द एड कर दिया गया है; क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है- “ब्रह्माकुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर ज़रूर लिखना है। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है।” (मु. 7.9.77 पृ.2 आदि) मुरलियों के महावाक्यों से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि हम ब्राह्मण सिर्फ ब्रह्मा माँ के ही बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारा बाप भी है- प्रजापिता। हम माता-पिता दोनों की प्रवृत्तिमार्गी कलातीत विष्णुवंशी संतान हैं। इस चित्र का साइज़ है- 30"X 40"। ल.ना. के चित्र का उल्लेख करते हुए बाबा ने मुरली में कहा है- “लक्ष्मी-नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें सारा सेट है। (इस ल.ना. चित्र में) लिमूर्ति भी, लक्ष्मी-नारायण भी, राधे-कृष्ण भी हैं। यह चित्र भी कोई रोज देखता रहे तो याद रहे शिवबाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह बना रहे हैं।” (मु. 7.8.65 पृ.2 अंत) • “अपना एम-ऑफिस देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं कि यह लक्ष्मी-नारायण का चित्र हरेक के पास होना चाहिए। ... यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है।” (मु. 11.1.66 पृ.3 आदि) • “सभी के घर में यह ल.ना. का चित्र ज़रूर होना चाहिए। कितना एक्युरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आवेगा। बाबा को याद करो तो यह याद आवेगा।” (मु. 1.1.69 पृ.3 आदि) • “बाबा कहते हैं- जब भी फुर्सत मिले तो ल.ना. के चित्र सामने आकर बैठो। रात को भी यहाँ आकर सो सकते हो। इन ल.ना. को देखते-2 सो जाओ।” (मु. 20.1.74 पृ.2 अंत)

ल.ना. और राधा-कृष्ण में संबंध

लक्ष्मी-नारायण के चित्र में साधारणतया यह समझानी दी जाती थी कि राधा-कृष्ण ही बड़े होकर ल.ना. बनेंगे। जबकि इस चित्र में जो चित्रण है, उसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि राधा-कृष्ण बड़े होकर ये ल.ना. बनेंगे, बल्कि इस चित्र का सही अर्थ यह निकलता है कि जो बीच में छपे हुए ल.ना. हैं और रा.कृ. का जो चित्र नीचे दिया हुआ है, इनका रचयिता और रचना का सम्बन्ध है। ल.ना. रचयिता ऊपर अर्थात् बीच में खड़े हुए दिखाये गए हैं। रचयिता माना माँ-बाप, प्रकाश वलय में ल.ना. जिनकी रचना सतयुग में जन्म लेंगे, जो नीचे दिखाए गए हैं। बाबा मुरली में अक्सर प्रश्न भी पूछते हैं- “ल.ना. का रा.कृ. से क्या सम्बन्ध है?” • “राधे-

कृष्ण साथ फिर ल.ना. का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं।” (मु. 29.4.71 पृ.1 मध्य) • कृष्ण का तो जब (पु.संगम में) स्वयंवर होता है, नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे (आदि) लक्ष्मी-नारायण के बच्चे थे। (पु.संगम में) राधे-कृष्ण ही स्वयंवर बाद लक्ष्मी-नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है। फिर उनकी डिनायस्टी चलती है। (मु. 16.8.70 पृ.1 मध्य) जब बाबा मुरली में कहीं-2 सम्बन्ध पूछते हैं तो इससे साबित होता है कि ये रा.कृ. और ल.ना. दी सेम सोल्स तो नहीं हैं। सम्बंध है तो जरूर वो आत्माएँ कोई सम्बंध में जुड़ी हुई हैं। माँ -बाप का और बच्चे का सम्बन्ध है। • “ल.ना. के चित्र के साथ राधे-कृष्ण भी हों तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है।” (मु. 2.1.73 पृ.3 अंत) • “(पु.संगम के) ल.ना.के फीचर्स बदलने नहीं चाहिए। नहीं तो कहेंगे इतने फीचर्स होते हैं क्या। फीचर्स एक ही होनी चाहिए।” (मु. 24.2.73 पृ.3 मध्य)

स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना

इस चित्र में तो यह बात बिल्कुल कलीयर है। सबसे ऊपर हेडिंग भी दिया हुआ है-“स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना”। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ‘के रचयिता’ यह बहुवचन में है। ‘स्वर्ग का रचयिता’ नहीं लिखा है। अगर स्वर्ग का रचयिता लिखा होता तो रचयिता एक हो सकता था; लेकिन यहाँ लिखा है- ‘स्वर्ग के रचयिता’; क्योंकि सृष्टि परिक्रिया के लिए रचना रचने वाले दो चाहिए। बच्चों की रचना दो के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है- स्वर्ग के रचयिता। ऐसे नहीं कि शिवज्योतिर्बिंदु से कोई रचना पैदा हो जाएगी। शिवज्योतिर्बिंदु तो निराकार आत्मा का नाम है। वो तो एक है; लेकिन निराकार से तो निराकारी ज्ञान का वर्सा मिलेगा। तब ही बाबा ने मुरली में प्रश्न किया है- “निराकार से क्या निराकारी वर्सा चाहिए?” (मु. 7.10.73 पृ. 4 मध्यांत) क्योंकि निराकार की रचना भी होने का सवाल नहीं है; क्योंकि निराकार आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तो उसको रचे जाने का सवाल नहीं है। रची वो चीज़ जाती है जो पहले न हो। रचयिता भी साकार चाहिए, रचना भी साकार चाहिए। क्रियेटर और क्रियेशन दोनों ही साकार में होने चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है- स्वर्ग के रचयिता अर्थात् ल.ना. और आगे लिखा है- और उनकी दैवी रचना, जो स्वर्ग के रचने वाले ल.ना. बहुवचन में बताए गए, उनकी दैवी रचना। दैवी रचना माना देवताई रचना। उनके जो बच्चे पैदा होंगे, वो देवता होंगे। अगर शिव की दैवी रचना कहें तो शिव तो भगवान है। भगवान से तो भगवान-भगवती की पैदाइश होगी या देवताओं की पैदाइश होगी? देवताओं से देवताओं

की पैदाइश होती है और भगवान से भगवान-भगवती बनेंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है- • “ल.ना. को गॉड-गॉडेज कहते हैं अर्थात् गॉड द्वारा यह वर्सा पाया है।” (मु. 7.2.76 पृ.1 मध्यांत) • “इन ल.ना. को निराकार ने (पढ़ाई से) ऐसा बनाया।” (मु. 24.5.64 पृ.2 अंत)

• कहते हैं ना कि गॉड-गॉडेज का राज्य था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। थे तो अब कहाँ गए?... अभी भी वह भिन्न नाम-रूप में यहाँ हैं यह राज सभी(अभी) तुम जानते हो। यह बातें समझने से बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको पढ़ा ऐसा बना रहे हैं। नम्बरवन हीरो, हीरोइन यह (आदि ल.ना.) हैं। (मु. 9.12.71 पृ.1 मध्यांत)

भगवान-भगवती का टाइटिल पु. संगमयुगी ल.ना. का है जिन्हें नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण अर्थात् नर-नारायण कहा जाता है। सत्युग में जो देवता के रूप में बच्चे पैदा होंगे वो भगवान-भगवती नहीं कहे जाएँगे; क्योंकि भगवान-भगवती वो तो टाइटिल है सब धर्म वालों के लिए। बाबा ने मुरली में कहा है- • “यह ल.ना. चैतन्य में थे तो सुख ही सुख था। सब धर्मों वाले इनको पूजते, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं।” (मु. 2.10.70 पृ.3 मध्य) वो तो सारे विश्व के माता-पिता हैं। कोई उनको मात-पिता माने या न माने। ‘स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना’ यह हेडिंग ही इस बात को साबित करता है कि रचयिता पहले होना चाहिए और रचना बाद में होनी चाहिए। यह सारा ही चित्र रचयिता के बाद रचना के क्रम से बना हुआ है। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है- • “पहले है परमपिता+परमात्मा रचयिता।” (मु. 20.10.73 पृ.1 मध्य) यह जो बीच में ल.ना. का चित्र है यह संगमयुगी ल.ना. का चित्र है। जब संगमयुग पूरा होना होगा तो राधा-कृष्ण का भी बच्चों के रूप में जन्म होगा, वो उनकी रचना है।

सत्युगी दैवी स्वराज्य आपका ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है

• “जैसे लिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखते हैं दैवी स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है।” (मु. 19.3.75 पृ.1 आदि) लिमूर्ति के चित्र के नीचे जो हेडिंग दिया हुआ है उसमें लिखा है कि ‘सत्युगी दैवी स्वराज्य आपका ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है’। ल.ना. के ताज के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। इस वाक्य से भी यह क्लीयर हो जाता है कि सत्युगी दैवी स्वराज्य जो जन्मसिद्ध अधिकार बताया है, वो जन्मसिद्ध अधिकार किसका है? ब्राह्मणों का और ब्राह्मण किसकी संतान हैं? ब्रह्मा की संतान। कब होते हैं? संगमयुग में। संगमयुग में जो ब्राह्मण हैं वो ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार लेते हैं। ईश्वर से जो जन्म मिला है उससे सिद्ध होने वाला

अधिकार। जैसे- लखपति-करोड़पति का बच्चा पैदा होता है तो करोड़पति बाप का जन्मसिद्ध अधिकार बच्चा ही लेता है; क्योंकि उसके जन्म लेने से ही सिद्ध है कि करोड़ों के ऊपर उसका अधिकार है। ऐसे ही ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है कि ईश्वर से जिन ब्राह्मणों ने जन्म लिया उनका जन्म लेने से ही वो सतयुगी वर्से का अधिकार सिद्ध हो जाता है। वो अधिकार इसी जन्म में मिलना चाहिए या अगले जन्म में मिलना चाहिए? इसी जन्म में मिलना चाहिए; क्योंकि ब्राह्मण जन्म जब यहाँ है तो जन्मसिद्ध अधिकार भी यहाँ होना चाहिए कि अगले जन्म में मिलेगा? क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है- “ब्राह्मण भी यहाँ बनना है। देवता भी यहाँ ही बनावेंगे।” (मु. 27.2.76 पृ.3 अंत) यह वाक्य भी इस बात को साबित करता है कि कोई ऐसे ब्राह्मण बच्चे भी हैं जो परमात्मा बाप से सतयुगी दैवी स्वराज्य का वर्सा, सतयुगी दैवी स्वराज्य की राजधानी का वर्सा इसी जन्म में, इसी शरीर से प्राप्त करते हैं। • जब जन्मसिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है- तब अधिकारी तो बन ही गए ना। (अ.वा.29.1.75 पृ.30 अंत) इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है- •“बाप स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर स्वर्ग का वरसा ही देगा और देंगे भी ज़रूर नर्क में।” (मु. 8.6.68 पृ.1 आदि) इसी जन्म में यदि 16 कला सम्पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो ईश्वरीय पढ़ाई अथवा योगबल की महिमा कैसे होगी? क्योंकि मुरली में बाबा ने कहा है- “तुम बच्चों को सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण यहाँ (संगमयुग पर) बनना है।” (मु. 25.3.74 पृ.1 अंत) गीता में भी आया है-

शक्रोतीहैव यः सोङ्दुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 5/23

इस लोक में ही जो पुरुष शरीर छूटने से पहले काम-क्रोध से उत्पन्न हुए आवेग को सहन कर सकता है, वह मनुष्य योगी है, वही सुखी है।

ल.ना. प्रकाश के वलय में और रा.कृ. सतयुगी दुनिया में

अगला प्वॉइण्ट इस चित्र में है कि ल.ना. के चारों तरफ जो प्रकाश का वलय दिखाया है, यह प्रकाश का वलय कोई देवताओं की पवित्रता का वलय नहीं दिखाया है। पवित्रता का जो वलय दिखाया जाता है, वो तो सिर के आस-पास दिखाया जाता है। सारे शरीर के आस-पास नहीं दिखाया जाता। यहाँ तो ल.ना. को एकदम सारा ही शरीर प्रकाश की दुनिया के अंदर दिखाया गया है और रा.कृ. को नीचे की ओर फूल-पत्तियों वाली स्वर्गीय सतयुगी दुनिया में दिखाया गया

है- चित्रकार से इस बात को चित्रित कराया है। साक्षात्कार के द्वारा बाबा ने चित्र में यह चित्रण दे दिया कि रा.कृ. हैं, सतयुग की प्राकृतिक सौंदर्य वाली दुनिया में और ल.ना. जिस दुनिया में है उस संगमयुगी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश है। गीता में भी आया है-

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्वीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ 11/17

आप पवित्रता की जिम्मेवारी के ताज अर्थात् मुकुटधारी, दृढ़ता रूपी गदाधारी, 84 जन्मों के ज्ञान चक्रधारी और योग रूपी तेज के पुंज रूप चारों ओर से प्रकाशमान हैं चारों ओर से कठिनाई से देखने योग्य, दैदीप्यमान अग्नि और सूर्य की प्रभा वाले, उपमाहीन आपको मैं देख रहा हूँ।

इन आदि ल.ना. को ज्ञान के प्रकाश के वलय से चारों तरफ घेरा हुआ दिखाया गया है। इनको सदा हरियाली की स्वर्णीय दुनिया के बीच में नहीं दिखाया गया है। इससे भी साबित हो जाता है कि ये ल.ना. ज्ञानप्रकाश की संगमयुगी दुनिया से कनेक्टेड हैं। सतयुगी दुनिया से उतने कनेक्टेड नहीं हैं। इन्होंने अपने बाप की याद के पुरुषार्थ के बल से, ज्ञान के बल से (यह) राजाई प्राप्त की (है)। ये विश्व के महाराजन बनते हैं। इसलिए सिर से लेकर पैरों तक का जो इनका चारों तरफ प्रकाश का वलय है, वो यह साबित करता है कि ये संगमयुगी ज्ञान-प्रकाश की दुनिया के बीच में रहने वाली आत्माएँ हैं। जबकि इनके बच्चे रा.कृ. सतयुगी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहने वाली आत्माएँ हैं।

ल.ना. का श्रृंगार

चित्र से एक और प्वॉइण्ट निकलता है। कोई यह कहे कि चित्र में इन ल.ना. को इतना ताम-ज्ञाम क्यों दिखाया है? संगमयुग में ऐसे ताम-ज्ञाम पहनकर बैठेंगे क्या? संगमयुग में ये ताम-ज्ञाम पहनकर बैठने की बात नहीं है। चित्रकार अंदरूनी सूक्ष्म बात को स्थूल दिखावे से ही चित्रण करेगा। जैसे शंकर को नंगा दिखाया जाता है तो चित्रकार यह अर्थ बताना चाहता है कि इनकी निराकारी आत्मिक स्टेज है। ब्रह्मा को कपड़े पहनाए गए हैं तो इससे यह बताया गया है कि इनकी देहभान की साकारी स्टेज है, शरीर रूपी वस्त्र का भान है। ऐसे ही ल.ना. के चित्र में ये जो लक्ष्मी और नारायण को अनेक प्रकार के अलंकार दिखाए गए हैं, वस्त्राभूषण दिखाए गए हैं, वो वास्तव में दिव्य गुणों का श्रृंगार दिखाया गया है। ये अंदरूनी चीज हैं तो चित्र में कैसे चित्रित की जाए! इसलिए इन दिव्य गुणों के स्थूल श्रृंगार से सूक्ष्म श्रृंगार की बात प्रत्यक्ष की गई

है। बाकी संगमयुग में ऐसा श्रृंगार हुआ स्थूल रूप नहीं होता। ये तो दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का श्रृंगार है:-

बिंदी: - मुख्य श्रृंगार कौन-सा होता है? बिन्दी लगाते हैं, वो है सबसे मुख्य श्रृंगार। स्थूल बिन्दी की तो बात नहीं, आत्मा रूपी बिन्दी है। देहभिमान रूपी जो गधा बैठा रहता है, वो हटाके आत्माभिमान की बिन्दी हमेशा लगी रहे। •“लाल टीका है सूरत की शोभा। चन्दन है आत्मा की शोभा।” (पुरानी अ.वा.6.7.69 पृ.82 अंत) चंदन समान रुहानियत की खुशबू फैलाने वाली चंदन की बिंदी। •“मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनन्द स्वरूप (आत्मा) हूँ- यह मस्तक की बिन्दी हो गई।” (अ.वा. 9.1.80 पृ.190 मध्य)

ताज - •“इतनी जिम्मेवारी के अधिकारी समझ करके चलो। स्व-परिवर्तन, विश्व-परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व-राज्य (वाले) ताज (के) अधिकारी होंगे। संगमयुगी ताजधारी सो भविष्य ताजधारी। वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं। वर्तमान (पुरुषार्थ) ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में दोनों स्वरूप देखो- संगमयुगी ब्राह्मण और भविष्य देवपदधारी। दोनों रूप देखो और फिर दोनों में चेक करो- ब्राह्मण जीवन में डबल ताज है वा सिगल ताज है? एक है पवित्रता का ताज, दूसरा है प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ाई और सेवा का। दोनों ताज समान हैं? सम्पूर्ण हैं वा कुछ कम हैं? अगर यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, चाहे पवित्रता का, चाहे पढ़ाई वा सेवा का, तो वहाँ भी छोटे-से ताज अधिकारी वा एक ताजधारी अर्थात् प्रजा पद वाले बनना पड़ेगा; क्योंकि प्रजा को भी (रुहानियत की) लाइट का ताज तो होगा अर्थात् पवित्र आत्माएँ होंगी; लेकिन विश्वमहाराजन् का ताज नहीं प्राप्त होगा। कोई महाराजन्, कोई राजन् अर्थात् राजा, महाराजा (अर्थात्) विश्व-महाराजा, इसी आधार पर नम्बरवार ताजधारी होंगे।” (अ.वा. 12.10.81 पृ.1 मध्य)

•“ताज है जिम्मेवारी का। स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी।” (अ.वा. 11.7.74 पृ.102 अंत) •“जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा।” (अ.वा. 11.7.70 पृ.289 अंत) •“बाबा ने यह भी समझाया है- डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है। बाकी लाइट का ताज वहाँ कोई रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है।” (मु. 9.11.69 पृ.2 अंत) •“कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आये, इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले।” (अ.वा. 6.1.79 पृ.191 आदि) •“भविष्य (जन्म) का ताज और तरक्त इस ताज और तरक्त के आगे कुछ भी नहीं है।” (अ.वा. 6.6.73 पृ.87 मध्यांत) •“तरक्त को तो जानते हो- बाप के दिलतरक्तनशीन। लेकिन यह दिल तरक्त इतना प्योर

है, जो इस तरक्त पर सदा बैठ भी वही सकते जो सदा प्योर हैं। बाप तरक्त से उतारते नहीं; लेकिन स्वयं उतर जाते हैं।” (अ.वा. 12.12.79 पृ.107 मध्य)

चिंदी - • “बापदादा सभी को विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं। कौन-सी? विशेष एक श्रृंगार दे रहे हैं। वह है सदा “शुभ चितक की चिंदी”। ताज के साथ-साथ यह चिंदी ज़रूर होती है। जैसे आत्मा बिंदी चमक रही है, ऐसे मस्तक के बीच यह चिंदी की मणी भी चमक रही है।” (अ.वाणी. 19.3.81 पृ.1 अंत) • “लाल टीका है सूरत की शोभा। चन्दन है आत्मा की शोभा।” (अ.वा. 6.7.69 पृ.82 अंत) चंदन समान रुहानियत की खुशबू फैलाने वाली • “मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनन्द स्वरूप हूँ- यह मस्तक की चिंदी हो गई।” (अ.वा. 9.1.80 पृ.190 मध्य)

तिलक - • “जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई-2 की स्मृति अर्थात् आत्मिक स्मृति की निशानी (और) मस्तक-बीच (विजय का तिलक लगा हो)” (अ.वा. 23.3.81 पृ.86 आदि) • अमृतवेले सदा अपने मस्तक में विजय का तिलक अर्थात् स्मृति का तिलक लगाओ।सुहाग की निशानी भी तिलक है। (अ.वा. 21.11.92 पृ.86 आदि) अचल रहने का साधन है- “अमृतवेले सदा तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिग न्यु, तो फुलस्टॉप भी बिंदी।” (अ.वा.9.1.93 पृ.165 अंत)

• “बाबा कहते हैं- तुमको राजतिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राजतिलक न ढूँगा तो कौन देगा? कहते हैं ना- तुलसीदास चन्दन घिसे..... यह बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव+बाबा है।” (मु. 5.3.73 पृ.3 आदि)। राम वाली आत्मा ही वास्तव में तुलसीदास का पार्ट बजाने वाली हुई; क्योंकि तुलसीदास वाली आत्मा ने ज्ञान का चंदन घिसा और रघुवीर माना परमपिता शिव ने आ करके उसको आत्म के हीरो पार्ट की स्मृति का तिलक सन् 1976 में लगा दिया कि तुम ही राम वाली आत्मा हो। तुम ही आदि नारायण बनने वाली आत्मा हो। तो राम की आत्मा को ये टचिंग दे दी। • “तरक्त को तो जानते हो- बाप के दिलतरक्तनशीन; लेकिन यह दिल तरक्त इतना प्योर है, जो इस तरक्त पर बैठ भी वही सकते, जो सदा प्योर हैं। बाप तरक्त से उतारते नहीं बच्चे स्वतः ही उतर जाते हैं।” (अ.वा.12.12.79 पृ.679 अंत) • “भविष्य (जन्म) का ताज और तरक्त इस ताज और तरक्त के आगे कुछ भी नहीं है।” (अ.वा.6.6.73 पृ.87 मध्यांत) दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए तब तो ऊँच पद पायेंगे। उनकी बुद्धि में बहुत

सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी-नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊँच पद पाया है।

नयनों की चमक - “नयनों में रुहानियत की चमक, रुहानी नजर। जिस्म को देखते हुए न देख रुहों को देखने के अभ्यास की चमक थी। रुहानी प्रेम की झलक थी।” (अ.वा. 23.3.81 पृ.86 आदि) • “दिव्य नयनों द्वारा अर्थात् दृष्टि द्वारा शान्ति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख वा आनन्द की शक्ति सब प्राप्त होती है।” (अ.वा. 11.11.89 पृ.15 आदि, 18 मध्यांत)

काजल - शरीर में सबसे जास्ती आकर्षण वाला अंग आँखें हैं और सबसे धोखा देने वाला अंग भी आँखें हैं। बाबा ने मुरली में बोला है- 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते होंगे। आँखों की भूलें होती हैं कि नहीं होती हैं? आँखें व्यभिचारी बनती हैं कि नहीं बनती हैं? तो बताया है कि पुरुषार्थी जीवन में इस आँख को कालीमा से बचाना है। पुरुषार्थी जीवन की बात है। सदा रुहानियत व भाई-भाई की स्मृति का नयनों में काजल हो।

नथनी - फुल कंट्रोल में लाने के लिए नाथ डाली जाती है। ऐसे ही कलियुग में जो स्त्रियाँ हैं, वो ज्यादातर स्त्रियाँ पति के कंट्रोल में नहीं रहती हैं। डायवोर्स ज्यादा देती हैं, दूसरे-2 खसम ज्यादा कर लेती हैं। दृष्टि-वृत्ति चंचल होती है। मुरली में बोला है- अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। • ऐसे बहुत पुरुष आते हैं- जिनकी स्त्रियाँ नहीं आती हैं। मानती ही नहीं हैं। लिखते हैं कि बाबा हमारी स्त्री तो शूर्पनखा, पूतना है। बहुत तंग करती है। क्या करूँ। बाबा तो लिखते हैं तुम तो कोई कमजोर हो। उनको समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी। तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को कैसे वश करेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना। प्यार से समझाना। (मु. 24.4.72 पृ.2 आदि) ये मुरली में ही बोल दिया है। ये कंट्रोल में रखने की यादगार है नथनिया, जो आज भी भक्तिमार्ग में मातायें पहनती हैं। सदा एक बाप दूसरा न कोई - इसी स्मृति की नाक में नथनी डालनी है। लक्ष्मी को नथनी नहीं दिखाई है; क्योंकि वो तो स्वतः सदा संपन्न रूप है। संगमयुगी पुरुषार्थी जीवन में नाथ डाली जाती है, संपन्न रूप में नाथ नहीं डाली जाती।

लाली - • “होठों पर प्रभु प्राप्ति आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान...। चेहरे पर मात-पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछुड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली...।” (अ.वा.23.3.81 पृ.86 आदि)

हर्षितमुख - • “नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरण करते हैं, वह ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरण करना। जो जितना ज्ञान को सिमरण करते हैं, वह उतना ही हर्षित रहते हैं।” (अ.वा. 16.6.72 पृ.309 अंत) •“आवाज़ से हँसना न है। ल.ना. को हर्षितमुख कहा जाता है। हर्षितमुख रहना और हँसना अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज़ से हँसना बुरी बात है। हर्षित रहना सभी से अच्छा है। खिल-2 करना भी विकार है।” (मु. 8.9.73 पृ.3 अंत)

कुण्डल - सदा तुम्हीं से सुनूँ, तुम्हारा ही सुनूँ- इस प्रतिज्ञा में कानों में कुण्डल दिखाये गए हैं। मुरली में भी है- • “कानों द्वारा भी आनन्द स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है।” (अ.वा. 9.1.80 पृ.190 अंत)

माला - •“मुख द्वारा अर्थात् गले में भी आनन्द दिलाने (विजयी बनने-बनाने) की बातें हों- यह गले की माला हो गई।” (अ.वा. 9.1.80 पृ.190 मध्य)

बाजू बंद - सदा सर्व के व बाप के मददगार वा अथक सेवाधारी रहने का बाजूबंद। ईश्वरीय सेवा के बंधन में बाजू बंधे हुए हैं, इसकी यादगार है बाजूबंद।

करधनी - जितने भी श्रृंगार करने के गहने होते हैं, उन गहनों में सबसे भारी और मजबूत गहना करधनी ही तो होती है। करधनी कमर को बाँधते हैं। बाँधने का मतलब (कामेन्द्रियों को) कंट्रोल करना। तो स्वर्ग लाने का काम कन्याएँ-माताएँ करेंगी या दुर्योधन-दुशासन के नैसर्गिक टाइटलधारी भाई लोग करेंगे? तो कन्याओं को करधनी बाँधनी है। करधनी बाँधना माना कमर की इंद्रियों में इतनी प्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी पराया पुरुष हाथ ना लगा पाए।

कंगन - पवित्रता की प्रतिज्ञा-अर्थ हाथों में दृढ़ निश्चय रूपी कंगन। बाबा ने ये भी कहा है- •“हाथों द्वारा अर्थात् कर्म में भी आनन्द स्वरूप की स्थिति हो-ये हाथों के कंगन हो गए।” (अ.वा. 9.1.80 पृ.190 मध्य)

अंगूठी - दस अंगुलियाँ हैं। उसमें भी राइट हैण्ड की उंगलियाँ अच्छा काम करती हैं और वो भी नम्बरवार करती हैं। तो जरूर दस उंगलियों में कोई उंगलियाँ नम्बरवार ज़्यादा काम करने वाली हैं, कोई कम काम करने वाली हैं। उनमें से जो लेफ्ट हैण्ड की दसवीं उंगली है, वो उतना काम की नहीं है। तो जो नौ उंगलियाँ हैं, वो नौ रक्तों की यादगार हैं। उंगलियों में वो रतन पहने जाते हैं। अंगूठी पहनने का मतलब क्या हुआ? (किसी ने कहा- वरण करना) हाँ। उन नौ रक्तों के गुणों को धारण करना। उनमें सबसे अच्छा रतन होता है- हीरा। हीरा माने हीरो पार्टधारी। जो

हीरोपार्टधारी है, उसके गुण और शक्तियों को याद करना, धारण करना- यही है अंगूठी पहनना। तो ये गुणों की खान दिखाई गई है, जो उंगलियों में धारण करते हैं।

पायल - पायल आवाज करती है। पायल बजती है। वो बताते हैं कि राइट करने जा रहे हैं या राँग करने जा रहे हैं! जब चाल चलते हैं, तब पायल बजती है। खड़े-2 हैं तब नहीं बजती। तो ये जीवन में ऐसी-2 चाल चलते हैं। वो पायल बताती है, ये कैसी चाल चलते हैं। बजने से चाल का पता लग जाता है। डान्स करती है कि धीरे-2 बजती है कि ताल से बजती है सब बताती है। पायल यादगार है चाल की।

खुशियों में सदा नाचते रहने की निशानी घुंघरू वा पायल। ज्ञान डान्स करते हैं। निर्भयता के घुंघरू, महाकाली जब विनाश करती है तो उसके पैरों में निर्भयता के घुंघरू रहते हैं।

- “शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है।... घुंघरू डालकर असुरों के ऊपर नाचना है। नाचने से क्या होता है? जो भी चीज़ होगी, वह दबकर खत्म हो जावेगी। निर्भयता और विनाश की निशानी यह घुंघरू की झँकार है।” (अ.वा. 4.11.76 पृ.2) •“शक्तियों का या गोपिकाओं का यादगार है, खुशी में नाचना। पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते- खुशी में नाच रहा है। नाचते हैं तो पाँव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे, उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी। देह की दुनिया व देहधारियों में नहीं; लेकिन आत्माओं की दुनिया में, आत्मिक स्थिति में होंगे।” (अ.वा. 21.5.77 पृ.168 अंत) •“पाँव द्वारा आनन्द स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पाँव हों अर्थात् कदम-2 आनन्द स्वरूप बनने और बनाने को ही उठें, यह पाँव का श्रृंगार है।” (अ.वा. 9.1.80 पृ.190 अंत)

बिछुए - कदम के पीछे कदम रखने वा श्रीमत पर चलने के बिछुए।

पाँव द्वारा आनन्द स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पाँव हों अर्थात् कदम-कदम आनन्द स्वरूप बनने और बनाने को ही उठें यह पाँव का श्रृंगार है।

ड्रेस - सदा दिव्य गुणों से सजी सजाई ड्रेस। “जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं। आकारी और निराकारी बापदादा बन जाते हैं- आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुँच जाओ। यह ऐसी ड्रेस है जो माया के वॉटर या फायर प्रूफ है।” (अ.वा.28.11.79 पृ.631 मध्य)

- “बापदादा द्वारा भिन्न-भिन्न टाइटिल्स बच्चों को मिले हुए हैं। तो भिन्न-भिन्न टाइटिल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न-भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं।...उसी टाइटिल की स्थिति में स्थित होना अर्थात् ड्रेसेज को धारण करना। कभी विश्व-कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्व शक्तिवान की और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय, जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेस धारण करो।...अब एक सेट समझ लिया? पूरा सेट ही धारण कर लिया? ऐसे अलग-अलग समय पर अलग-अलग सेट धारण करो।.....तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट हैं। वह धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न-भिन्न प्रकार की सुन्दर ड्रेसेज छोड़कर देह अभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? (अ.वा.9.1.80 पृ.190 आदि, 191 आदि)

संगमयुगी ल.ना. व सतयुगी ल.ना. अलग-2

जो ताज दिखाया गया है, वो स्वर्ग की स्थापना की जिम्मेवारी का ताज है जो औरों ने धारण नहीं किया; लेकिन इन्होंने 100 परसेंट उस जिम्मेवारी के ताज को धारण कर लिया। तो इससे भी यह जाहिर होता है कि संगमयुगी ल.ना. संगमयुग के हैं, जो राधा-कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बनते हैं। डायरैक्ट परमपिता परमात्मा से दिव्य गुणों का श्रृंगार लेते हैं, शक्तियाँ धारण करते हैं और स्वर्ग की स्थापना की जिम्मेवारी का ताज धारण करते हैं। बाकी इनके जो बच्चे रा.कृ. पैदा होंगे, वो कोई स्वर्ग की स्थापना की जिम्मेवारी धारण करने वाले नहीं होंगे। उनकी बुद्धि में तो ज्ञान ही नहीं होगा। बाबा ने तो मुरलियों में ल.ना. के बारे में दो तरह से बोला है। एक जगह बोला है-• “सतयुग में तो बुद्ध होंगे। इन ल.ना. को कुछ भी नॉलेज नहीं है।” (मु. 17.4.71 पृ.3 अंत)

दूसरी तरफ मुरली में बोला है कि - •“बाप समझाते हैं- तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब समझदार बनाते हैं। यह (ल.ना.) समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सकें।” (मु. 29.7.70 पृ.3 मध्यादि) मुरलियों में ये जो विरोधी बातें आ जाती हैं, उससे कहीं-2 अल्पज्ञ ब्राह्मणों को मुंझान पैदा हो जाती है कि बाबा ने तो मुरलियों में कहीं कुछ, कहीं कुछ बोल दिया है; लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा तो जो भी बात बोलते हैं- एक अर्थ वाली ही बोलते हैं। दो अर्थ वाली बात बाबा क्यों बोलेंगे? ‘गॉड इज ट्रुथ’ कहा जाता है और सच्चाई तो एक ही होती है। गीता में भी आया है-

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ 9/19

मैं ही ज्ञान मंथन रूपी अमृत हूँ और असत्य रूपी अनिश्चय की मृत्यु भी हूँ। हे सद्ग्राम्य अर्जनकर्ता अर्जुन ! सदा सत्य मैं ही हूँ।

बाबा की सच्चाई की बात का सही अर्थ न लगा पाने के कारण ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। जहाँ बोला है- ल.ना. बुद्ध हैं वो सत्युगी ल.ना. (रा.कृ.) के लिए बोला है और जहाँ बोला है वो ल.ना. समझदार हैं; विश्व के मालिक समझदार ही बन सकते हैं- वो बोल बोला है संगमयुगी ल.ना. के लिए; क्योंकि संगमयुग में वह पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही का वर्सा परमात्मा बाप से डायरैक्ट लेते हैं। डायरैक्ट ईश्वर से जो वर्सा प्राप्त करने वाली आत्माएँ हैं, वो वास्तव में संगमयुग में ही हो सकती हैं, सत्युग में नहीं होतीं। मुरली के महावाक्य के आधार पर भी यह बात क्लीयर हो जाती है कि संगमयुगी ल.ना. अलग हैं और सत्युगी रा.कृ. जो माँ-बाप से जन्म लेकर फिर बड़े होकर अपने माँ-बाप का ल.ना. टाइटिल धारण करते हैं, वो अलग हैं। संगमयुगी ल.ना. रचयिता हैं और जो रा.कृ. बड़े होकर सत्युगी ल.ना. बनते हैं, वो उनकी रचना हैं।

माँ-बाप और बच्चों के रूप में भाई-बहन, ये दो ही सत्युगी सम्बन्ध हैं। इसका फाउन्डेशन संगमयुग में पड़ता है। माँ-बाप तो वही बन सकते हैं, जो इसी शरीर से पुरुषार्थ करके अपने जीवन में सम्पूर्ण उपलब्धि प्राप्त करें।

इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है- • “तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर हम दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जावेगी। यह ल.ना. की भी डिग्री कम है; क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है। ज्ञान बिगर मनुष्य को क्या कहेंगे? अज्ञानी। इन (ल.ना.) को अज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से ही यह पद पाया है।” (मु. 4.6.67 पृ.3 अंत) संगमयुगी ल.ना. के लिए बाबा ने मुरली में कहा है- • “अब हीरे जैसा जन्म तो सब कहेंगे इन ल.ना. का ही है।” (मु. 5.2.67 पृ.1 आदि) • “तुम (सब) बता देंगे इन ल.ना. का जन्म कब हुआ। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। फिर कल 9 वर्ष कम 5000 वर्ष।” (सन् 1966 की वाणी है) (मु. 4.3.70 पृ.3 मध्य) बाबा ने मुरली में कहा है- • “पुरुषोत्तम संगमयुग पर हीरे जैसा जीवन बनता है। इनको (ल.ना.) को हीरे जैसा नहीं कहेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान, ... यह दैवी संतान।” (मु. 28.4.68 पृ.2 आदि) • “नारायण से पहले तो श्रीकृष्ण है, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? पहले-2 नारायण थोड़े ही बनेंगे। पहले तो श्रीकृष्ण प्रिन्स ही बनेंगे ना। बाप कहते हैं- अभी तुम (हम बच्चे) नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हो।

गाया भी जाता है- बेगर टू प्रिस।” (मु. 16.7.68 पृ.3 मध्य) स्पष्ट है कि नर से श्रीकृष्ण तो अगले जन्म में ब्रह्मा ही बनेंगे; परंतु हम बच्चे इसी संगमयुगी जन्म में नर से नारायण बनते हैं। इसीलिये नर से ना. बनने का गायन ज्यादा है। शिवबाबा ने इन्हीं संगमयुगी ना. को समझदार बताया है। जबकि दूसरे सतयुगी नारायण को ज्ञान न होने के कारण बुद्ध बताया है।

ल.ना. का राज्यकाल- ‘संवत् 1 से लेकर 2500 वर्ष’

बाबा ने मुरली में कहा है- • “ल.ना. ने जरूर आगे (2018) जन्म में संगम पर राज्य लिया है। लक्ष्मी-नारायण ही 84 जन्म भोग अब इस अंतिम जन्म में हैं। ल.ना. को राज्य किसने दिया? देने वाला कोई तो होगा ना! तो यह सिद्ध होता है ज़रूर भगवान् (ने) दिया होगा; परंतु कैसे दिया। सतयुग आदि में यह महाराजा-महारानी कैसे बने यह बाप बैठ समझाते हैं।” (मु. 21.4.72 पृ.3 आदि) • “कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है। उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? ज़रूर राजा का बच्चा होगा ना।कृष्ण जब है तब थोड़े ही पतित रहते हैं। जब वह (पतित) बिल्कुल खलास हो जाते हैं, तब यह गद्वी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत् शुरू होता है। लक्ष्मी-नारायण से ही संवत् शुरू होता है।” (मु. 29.1.71 पृ.3 अंत) • “हमारा नया वर्ष तो होगा 1-1-1। एक तारीख, एक मास, एक वर्ष।” (मु. 22.10.68 पृ.3 मध्य) • “दिन-प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट बहुत होती जावेगी। कहीं बच्चे चिलों में (तिथि)-तारीख याद लगाना भूल जाते हैं। ल.ना. के चिल में (तिथि)-तारीख ज़रूर होनी चाहिए।” (मु. 3.6.67 पृ.1 मध्य)

इस चिल में ल.ना. के पाँवों के बीच में जो छोटी-2 लिखत लिखी हुई है- ‘संवत् 1 से लेकर 2500 वर्ष’। यह 2500 वर्ष की लिखत ही इस बात को साबित कर देती है कि यहाँ बीच में जो संगमयुगी ल.ना. का चिलण है, उनके राज्य का काल दिखाया गया है कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य-काल है 2500 वर्ष। सतयुग में जो रा.कृ. पैदा होंगे, ल.ना. बनेंगे उनका कार्यकाल कोई 2500 वर्ष थोड़े ही है। वो तो सिर्फ उनकी 8 पीढ़ियों में सतयुगी ल.ना. का कुल मिलाकर 1250 वर्ष राज्य चलेगा; लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है 2500 वर्ष। इससे भी यह बात साबित हो जाती है कि ये वो ही राम-सीता वाली आत्माएँ हैं, जो संगमयुग में पूरा पुरुषार्थ करके राम-राज्य स्थापन करती हैं और ल.ना. की डिनायस्टी शुरू करने के निमित्त बनती हैं और यही आत्माएँ लेता में जाकर फस्ट जन्म में राम-सीता के रूप में जन्म लेंगी और वहाँ 12 पीढ़ियों तक इन राम-सीता की राजाई चलेगी। 1250 वर्ष लेतायुग की राजाई और 1250 वर्ष की ल.ना. के

नाम से सतयुग की राजाई, ये दोनों मिलाकर दोनों प्रकार की राजाइयों को स्थापन करने वाली आत्माएँ ये संगमयुग में संगमयुगी ल.ना. हैं। इसलिए इनके पैरों के बीच में लिखा हुआ है- संवत् 1 से लेकर 2500 वर्ष। इस लिखत से भी यह क्लीयर हो जाता है कि ये राम-सीता वाली आत्माएँ यहाँ संगमयुगी ल.ना. के रूप में ज्ञान-प्रकाश के वलय में खड़ी हुई दिखाई गई हैं। ये सतयुगी ल.ना. बनने वाली आत्माएँ नहीं हैं। हाँ, इनका टाइटिल सतयुग में 8 पीढ़ियों तक चलता रहेगा। बाबा ने मुरली में कहा है- •“यह अभी जानते हैं हम सो (संगमयुगी) ल.ना. बनते हैं। हम सो राम-सीता बनेंगे।” (मु. 25.5.72 पृ.3 मध्यांत) इसी तरह दूसरी मुरली में कहा है- •“सतयुग में (नं.वार) ल.ना. का राज्य है। फिर वही लेता में भी राज्य करते हैं।” (मु. 9.11.72 पृ.3 मध्यादि) चूँकि संगमयुगी रामबाप के अंतिम 84 वें जन्म वाले शरीर के द्वारा ही निराकार राम शिव प्रैक्टिकल में सतयुग की स्थापना कराते हैं; इसलिए सतयुग को भी रामराज्य या रामपुरी कहा जाता है। बाबा ने मुरली में कहा है- •“सतयुग को रामपुरी कहा जाता है। अक्षर कहते हैं; परंतु यह नहीं जानते कि राम कौन है? ” (मु.4.3.70 पृ.2 अंत) •“जिस नाम से (रामराज्य की) स्थापना होती तो ज़रूर उनका नाम ही रखेंगे।” (मु. 25.5.74 पृ.1 मध्य) परंतु शिव तो स्वर्ग में जाते ही नहीं। अतः शिवराज्य, नारायणराज्य, कृष्णराज्य का गायन नहीं है। राम-राज्य का ही गायन है। इसलिए मुरली में कहा है- •“राम-राज्य है सतयुग (के) आदि में।” (मु. 2.8.76 पृ.3 मध्य)

विश्वमहाराजन और सतयुगी महाराजन में अंतर

पु.संगमयुगी ल.ना. के पैरों के नीचे जो मोटी-2 लिखत लिखी हुई है- ‘विश्व महाराजन श्री नारायण तथा विश्वमहारानी श्री लक्ष्मी’। यह लिखत भी इस बात को साबित करती है कि चित्र में संगमयुगी ज्ञान प्रकाश के वलय में, बीच में खड़े हुए जो ल.ना. हैं ये विश्वमहाराजन हैं, ये सतयुगी महाराजन नहीं हैं। विश्वमहाराजन और सतयुगी महाराजन में अंतर है। •“जब विश्वराजन बनेंगे तो विश्व का बाप ही कहेंगे ना। विश्व के राजन विश्व के बाप हैं ना।” (अ.वा.6.8.70 पृ.303 अंत) •“विश्व राजन बनना व सतयुगी राजन बनना इसमें भी अंतर है।”(अ.वा.28.1.85 पृ.146 मध्य) विश्व धर्म जहाँ होते हैं वहाँ विश्वमहाराजन होंगे। सारा विश्व माना सारा जगत। माना 500 करोड़ की मनुष्य आत्माएँ उनके प्रति नतमस्तक होंगी। अंग्रेज लोग भी उनको कहेंगे- ‘लॉर्ड कृष्ण’। अंग्रेज लोग भी उनको मानेंगे। मुरली में भी ऐसे-ऐसे महावाक्य आए हैं, जिनसे यह साबित हो जाता है कि स्वर्ग के रचयिता ल.ना. संगमयुग में

होते हैं। जैसे एक वाक्य है- “सब कहेंगे इन ल.ना. को हेविन का रचयिता, हेविनली गॉडफादर”। हेविनली गॉडफादर तो हेविन के रचयिता ही कहे जायेंगे। हाँ, यह है कि जब से ये ल.ना. के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तब परमपिता शिव की प्रवेशता की बात इनमें साबित नहीं होती; क्योंकि फिर तो ये पवित्र बन जाते हैं; लेकिन विश्व को कण्टोल करने की परमपिता परमात्मा की पूरी शक्ति तो इनमें आ ही जाती है न! इस आधार पर ये संगमयुगी ल.ना. अलग साबित हो जाते हैं। और मुरली में यह भी कहा है- • “राम भी वास्तव में जगतजीत था ना।” (मु. 15.12.72 पृ.1 मध्य) वास्तव में 500 करोड़ की विश्व को जगत कहा जाता है। यही कारण है कि चित्र में ल.ना. के पैरों तले की लिखत में विश्व महाराजन श्री ना. शब्द प्रयोग किया गया है। वास्तव में राधा-कृष्ण की आत्माएँ 500 करोड़ की विश्व पर संगमयुगी राजाई नहीं करेंगी। वे सिर्फ 9 लाख की आबादी पर राजाई करेंगी। इसलिए राधा-कृष्ण को विश्वमहाराजन न कहकर सतयुग का मालिक कह सकते हैं। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा भी है- • “ऊँच-ते-ऊँच बाप से ऊँच-ते-ऊँच वरसा मिलता है। वह (वरसा) है ही भगवान (भगवती का)।” (मु. 8.1.67 पृ.2 मध्यांत) राधा-कृष्ण को देवी-देवता कहेंगे। भगवान-भगवती नहीं। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है- • “भगवान (शिव) ने जरूर भगवती-भगवान पैदा किये।” (मु. 24.5.64 पृ.2 अंत)

संगमयुगी स्वर्ग

- “वह है ही वण्डर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग पैराडाइज़। यहाँ सात वण्डर्स कहते हैं ना। यह है मायावी। ईश्वरीय वण्डर है स्वर्ग। वह स्वर्ग का वण्डर अभी न है तो माया के वण्डर्स बनते हैं।” (मु. 9.2.68 पृ.2 अंत) • “स्वर्ग को भी वण्डर कहा जाता है ना। कितना शोभनिक है। माया के सात वण्डर्स हैं। बाप का है एक वण्डर। वह सात वण्डर्स एक पूरे में रखो और यह एक पूरे में रखो तो भी यह भारी हो जावेगा।” (मु. 5.12.68 पृ.2 मध्य) • “तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे जैसा इंजीनियर, ऑफिसर कोई हो न सके।” (मु. 23.2.68 पृ.4 अंत)

यहाँ माने संगमयुग में और वहाँ माने सतयुगी स्वर्ग में। 1. सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नैचुरल साज जगायेंगे; लेकिन संगमयुगी ब्राह्मणों के आदिकाल - अमृतवेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगमयुग पर आदिकाल अर्थात् अमृतवेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। 2. मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज “बच्चे - मीठे बच्चे” कहकर बुलाते हैं। यह नैचुरल साज, ईश्वरीय

साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है। उसके अनुभवी हो ना? तो सतयुगी साज़ महान हैं या ये संगमयुग के साज महान हैं? साथ-2 सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगमयुग पर ही सब होता है। 3. वहाँ सतोप्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खायेंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्वसंबंधों के रस, सर्वप्राप्ति-संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। 4. वह गोल्डन एज का फल है। और यह डायमन्ड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन-सा हुआ? 5. वहाँ दास-दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। 6. वहाँ महान आत्माएँ माँ-बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता-पिता हैं। 7. वहाँ रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे, यहाँ सबसे बड़े-से-बड़ा झूला कौन-सा है, वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता-पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न-2 झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला। ...8. वहाँ रतनों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे; लेकिन यहाँ बाप कहते हैं, सदा मेरे से, जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बन करके खेल सकते हो, बंधू बन खेल सकते हो। बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बना करके भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा। जो न टूटेगा न फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 9. वहाँ आराम से गदेलों पर सोयेंगे, यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। 10. वहाँ निन्द्रा-लोक में चले जाते हो; लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्मवतन में चले जाओ। 11. वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे और अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। 12. वहाँ (स्वर्ग के इंद्रदेव) कहलायेंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। 13. वहाँ दो नेत्री होंगे, यहाँ तीन नेत्री हो। 14. संगमयुग के अंतर में अर्थात् नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल इसके अंतर में वहाँ क्या बन जायेंगे? रॉयल बुद्ध बन जायेंगे। 15. दुनिया के हिसाब से परमपूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे; लेकिन नालेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जायेगा। 16. यहाँ तो गुडमॉर्निंग, गुडनाइट बाप से करते हो और वहाँ आत्माएँ आत्माओं से करेंगी। 17. वहाँ (सतयुगी) राज्य-अधिकारी होंगे, राज्य-कर्ता होंगे और यहाँ विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सतयुगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। 18. वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खायेंगे और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते हो, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ-2 रखो। (अ.वा. 7.1.80 पृ.753, 754, 755)

सोने के, हीरे के महल होंगे। सोना मतलब सच्चाई। महल मतलब संगठन। सच्ची-2 आत्माओं के संगठन रूपी महल होंगे, संगठन रूपी किले होंगे। हीरे के महल होंगे। हीरा मतलब? हीरो पार्टधारी आत्माएँ होंगी। अष्टदेव क्या हैं? हीरो पार्टधारी हैं। संगमयुगी स्वर्ग मतलब कलियुगी जो नर्क है वो है लोहे और पत्थर की दुनिया और संगमयुगी स्वर्ग है सोने की दुनिया। सोना मतलब सच्चे संगठन होंगे। सच्चे बच्चों का संगठन होगा। झूठों का संगठन नहीं होगा। संगमयुगी स्वर्ग में मकान, महल और किले कैसे होंगे? अनेक मंजिल वाले नहीं होंगे। किला माना संगठन। ईंटों को जोड़-जोड़कर मकान, किला बनता है। तो ये हैं चेतन ईंटें-आत्माएँ और इनको स्लेह के गारे से जोड़ा जाता है। परमात्मा ही आकर जोड़ता है। तो जो माया के बनाए हुए संगठन हैं, वो बहुत मंजिलों वाले हैं और बाप का जो बनाया हुआ संगठन है, उसमें बहुत मंजिलें नहीं हैं। ऐसे नहीं कि एक संगठन के ऊपर दूसरा संगठन, दूसरे संगठन के ऊपर तीसरा संगठन, जैसे कि जिज्ञासु अपने परिवार के साथ ज्ञान में चल रहा है, वो भी एक संगठन हुआ। फिर वो जिस गीता-पाठशाला में जाता है उसके अण्डर दी कण्ट्रोल उसको रहना पड़े। यह उससे ऊपर का संगठन हो गया। तो दूसरी मंजिल हो गई। फिर गीता-पाठशाला किसी सेंटर से लगी हुई है। तो सेन्टर के कण्ट्रोल में गीता-पाठशालाओं को रहना पड़ता है। तो कौन-सी मंजिल हो गई? यह तीसरी मंजिल हो गई। फिर सेन्टर को छोटे-मोटे जोनल इन्वार्ज के कण्ट्रोल में रहना पड़ता है। चौथी मंजिल हो गई। छोटे-मोटे जोनल इन्वार्ज को बड़े जोनल इन्वार्ज के कण्ट्रोल में रहना पड़ता है। पाँचवीं मंजिल हो गई। तो यहाँ इस दुनिया में एक के ऊपर दूसरे संगठन रूपी महल होते हैं, (एक-दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं कण्ट्रोल करने के लिए); लेकिन नई दुनिया में सिर्फ एक ही राजा (और एक ही धर्म) होगा। (दूसरी धारणाएँ, दूसरा शासन नहीं होता।) सतयुग में, 21 जन्मों में से पहले जन्म का जो राज-भाग होगा वो एक के द्वारा कण्ट्रोल होगा। वहाँ मंजिलें नहीं होंगी। संगठन के ऊपर कोई दूसरा संगठन नहीं होगा। सारा विश्व एक ही परिवार होगा। वसुधैव कुटुम्बकम् - यह भक्तिमार्ग में बोलते हैं कि सारी दुनिया हमारा कुटुम्ब है। सतयुग में आत्मिक स्लेह बहुत होगा और सतयुग में भी जो पहला जन्म होगा, फर्स्ट जन्म में एक के प्रति लगाव बहुत होगा। उसका राजा ही माई-बाप माना जाएगा।

जो स्वर्णिम संगमयुग होगा उसमें धी-दूध की नदियाँ बहेंगी का मतलब यह है- घृत कौन-सा है? अव्यभिचारी याद का। इतना शुद्ध घृत होगा, इतना याद का धी होगा कि खूब नहाओ! कमी नहीं पड़ेगी। अभी तो खींच-खींचकर योग लगाते हैं तो भी नहीं लगता।

अमृतवेले बैठते हैं नींद आने लगती है। वहाँ तो धी की नदियाँ बहेंगी। ज्ञान का दूध है। हृद के दूध और धी की बात नहीं है। बेहृद का बाप बेहृद के बच्चों से बेहृद की बातें करते हैं।

- “ऐसे दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं।” (मु. 8.5.70 पृ.3 अंत) शेर-बकरी एक घाट पर पानी पियेंगे। शेर कौन? रुद्रमाला में नम्बरवार शेर तो हैं। खँूखार भी हैं। अब्बल नं. शेर भी होगा। अशोक की लाट में क्या दिखाते हैं? तीन शेर दिखाते हैं ना। वे कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीन आत्माएँ शेर के रूप में दिखाई हैं। तो वह शेर भी होगा और उसके मुकाबले बकरी भी होगी। बकरी की क्या खासियत है? एक तो मैं-मैं का पाठ ज्यादा पढ़ती है, पढ़ाती है और दूसरा- जो कान पकड़ ले, बस, उसी के अण्डर में आ जाती है। बाबा ने कहा है- किमूर्ति में तीन शेर नहीं हैं वास्तव में एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। शेर कौन हुआ? जो जगतपिता है वही शेर है और बकरी हो गई जगदम्बा। शिवबाबा के दरबार में दोनों एक घाट में बैठ करके पानी पीते हैं। पानी मतलब? ज्ञान जल। शेर जैसी ज्ञान की दहाड़ मारने वाली आत्माएँ और बकरी जैसी मैं-मैं करने वाली आत्माएँ दोनों ही एक घाट पर जल पियेंगे। कौन-सा घाट? ज्ञान का घाट।

पुष्पक विमान कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। अभी पुरुषार्थ करने वाले रावण सम्प्रदाय भी हैं और राम सम्प्रदाय भी हैं। जो रावण सम्प्रदाय हैं वो भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं माना फूल बना रहे हैं। क्या? वो भी काँटों को क्या बना रहे हैं? वो भी फूल बना रहे हैं। जितनी उनको अक्ल भगवान से मिली हुई है, वो रावण सम्प्रदाय वाली आत्माएँ चाहे एडवांस की बीजरूप आत्माएँ हों और चाहे बेसिक में आधारमूर्त आत्माओं में से हों नम्बरवार उनमें रावण सम्प्रदाय हैं या नहीं हैं? बेसिक वालों में भी रावण सम्प्रदाय हैं, एडवांस पार्टी वालों में भी रावण सम्प्रदाय हैं। वो रावण सम्प्रदाय जितनी-2 जिसने पढ़ाई को कैच किया है, उतना नं.वार फूल बनाने की सेवा में लगे हुये हैं। उसी को कहते हैं- पुष्पक विमान। ये आत्मा रूपी विमान है। वो विमान नहीं है, जो स्थूल विमान शास्त्रों में दिखाय दिया है।

तो ऐसे ही स्वर्णिम संगमयुग में जो राजधानी स्थापन होनी है, उसमें सभी आत्माओं के अपने-2 पुरुषार्थ के अनुसार पद भी प्रत्यक्ष होंगे, जिसके लिए बाबा ने मुरली में कहा है- “बाबा कहे यह काम न करो, मानेंगे नहीं। जरूर उल्टा काम करके दिखावेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार की(के) चाहिए ना।” (मु.10.12.68 पृ.3 मध्यांत)

जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, राजा-रानी बनेंगे। जो न करते हैं, न कराते हैं वो जाकर दास-दासियाँ अर्थात् वर्थ नॉट ए पेनी बनेंगे। उनको यह ख्याल नहीं आ सकता कि

जाकर राजा-रानी बने। कम दर्जा पाने वाले का यह हाल होगा- न पढ़ेंगे, न बाप की याद में रहेंगे।

बाबा कहते हैं ना सेवा के चक्र लगाएँगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जो सबसे जास्ती सेवा के चक्र काटेंगे तो सबसे बड़े राजा बनेंगे। मन-बुद्धि, कर्मन्द्रियों और वाचा से लौकिक दुनिया के, धन्धा-धोरी के चक्र काटते रहे तो सबसे बड़े बनेंगे या छोटे बनेंगे? फिर तो छोटे बन जाएँगे। कहाँ चक्र काटें? ईश्वरीय सेवा में मनसा भी लगी रहे, तन से भी लगे रहें और वाचा से भी लगे रहें। बड़े-से-बड़ा जो चक्र काटने वाले बनेंगे, वो बड़े राजा बनेंगे। इसलिए खूब स्वदर्शन चक्र घुमाओ और ईश्वरीय सेवा के चक्र काटो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। वारिसदार वो बनते हैं, जो सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होते हैं। दुनियावी धन्धे-धोरी खत्म हो गए। जो बाप का धन्धा सो बच्चों का धन्धा। जो वारिसदार होंगे वो तो राजा बनने वाले की क्वालिटी के होंगे ना! तो जो राजा बनेंगे उनकी चलन भी रॉयलटी की होगी या साधारण चाल होगी? स्पेशल उनकी चाल ही देखने में आ जावेगी। जब राजा बनेंगे तो प्रजा तो बनाई होगी। एक राजा होता है उसके नीचे लाखों की तादाद में प्रजा होती है। तो इतनी लाखों आत्माओं को संदेश भी तो दिया होगा। लाखों आत्माओं की नजरों में वो चढ़े हुए भी तो होंगे कि देखो, इन्होंने हमको कितना श्रेष्ठ रास्ता बताया! यह तो राजाओं की क्वालिटी हो गई। महाराजाएँ “विश्व का राजा वह बनेगा जो विश्व के (की) हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप-दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो करना है, तब विश्व के महाराजन की जो पदवी है, उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो।” (अ.वा. 28.10.76 पृ.2 आदि)

राजाएँ - •“देहीअभिमानी बनने बिगर राजाएँ बन न सकेंगे।” (मु. 3.3.69 पृ.2 अंत)

राज्य अधिकारी - •“राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात् ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यक है।” (अ.वा. 18.1.85 पृ.1 अंत)

महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे - •“जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ-2 होना चाहिए। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़ेसवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आवेंगे और प्यादे प्लैन्स ही सोचते रहेंगे।” (अ.वा. 26.3.70 पृ.228 मध्य) •“महावीर बच्चों की विशेषता यह है कि पहले याद को रखते, फिर सेवा को रखते। घोड़ेसवार और प्यादे पहले सेवा, पीछे याद। इसीलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद, फिर सेवा करें तो सफलता है। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी

अच्छा-बुरा होता है, उसके रूप में आ जाते हैं और पहले याद को रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं।” (अ.वा. 29.4.84 पृ.281 मध्य)

साहूकार प्रजा - • “इसी तरह से साहूकार प्रजा भी होगी। तो यहाँ भी कई राजे नहीं बने हैं; लेकिन साहूकार बने हैं; क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, सेवा कर पुण्य का खाता भी जमा बहुत है; लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलतामूर्त बन जायें वह कण्ट्रोलिंग पॉवर और रूलिंग पॉवर नहीं है अर्थात् नॉलेजफुल हैं; लेकिन पावरफुल नहीं हैं। शस्त्रधारी हैं; लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। स्टॉक है; लेकिन समय पर न स्वयं यूज कर सकते और न औरों को यूज करा सकते हैं। विधान आता है; लेकिन विधि नहीं आती। ऐसे भी संस्कार वाली आत्माएँ हैं अर्थात् साहूकार संस्कार वाली हैं। जो राज्य अधिकारी आत्माओं के सदा समीप के साथी ज़रूर होते हैं; लेकिन (स्वयं) अधिकारी नहीं होते।” (अ.वा. 14.1.82 पृ.238 अंत, 239 आदि) • “जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोयेंगे; लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पविल रहेंगे।” (मु.31.7.73 पृ.2 आदि)

प्रजा - प्रजा वर्ग वाले क्या करेंगे? पविलता का पुरुषार्थ करेंगे? यहाँ जो ब्राह्मण जीवन में है, वो मुख्य पुरुषार्थ क्या है? घर-गृहस्थ में रहते पविल रहने का पुरुषार्थी जीवन हो। ये संदेश तो ले लेते हैं; लेकिन पविल रहने का पुरुषार्थ नहीं करते। जब पविल रहने का पुरुषार्थ ही नहीं करते तो रेगुलर क्लास भी, परमात्मा बाप की पढ़ाई भी नहीं पढ़ते। फिर ईश्वरीय सेवा की तो बात ही नहीं। वो प्रजा में चले जाते हैं। • “कोई भी कर्म-इन्द्रियों के वशीभूत होना अर्थात् रूलिंग पावर नहीं है, जिससे कि ‘स्व’ पर राज्य नहीं कर सकता। जब स्वयं पर प्रजा का राज्य है और कर्म-इन्द्रियाँ प्रजा हैं तो जब तक प्रजा का राज्य है तो समझो प्रजा बनने वाले हैं।” (अ.वा. 11.10.75 पृ.175 अंत)

दास-दासी - जो बाप के बन जाते हैं वो फिर अन्दर के दास-दासियाँ आदि बनते हैं। सम्बन्ध तो बाप से जोड़ा; लेकिन क्या गड़बड़ हो गई? कोई भी प्रकार की सेवा तो करते ही नहीं है, और ही डिससर्विस करते हैं (और 16000 की लिस्ट में तो ऐसे-2 भी हैं जो भाग जाते हैं, बाप को धोखा दे जाते हैं, धमचक्र मचाते हैं, बाप की ग्लानि करते हैं) तो फिर वो क्या बनेंगे? वो फिर दास-दासी बन जाते हैं। तो दास-दासियाँ बनते-2 फिर पिछाड़ी में नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। पिछाड़ी में क्यों मिलता? आखिर पढ़ाने वाला कौन है? जो बाप के बने एक बार, सरेण्डर हुए तो जिम्मेवार कौन हो गया? बाप जिम्मेवार हो गया। तो बाप जिनका जिम्मेवार हो गया, तो बाप छोड़ देगा उन्हें? नहीं। कोई भी हालत में उन समर्पित होने वालों को

ताज-पतलून तो देना ही है। अंतिम जन्म में लेंगे तो प्राप्ति कम है और आदि के जन्म में लेंगे तो प्राप्ति ज्यादा है। आदि के जन्मों में दास-दासी बनते रहे और अंतिम जन्म में जाकर ताज-पतलून मिल गया। तो 63 जन्मों पर क्या असर पड़ेगा? 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब-किताब बन जाता है। तो जो दास-दासियाँ बनने वाले हैं या कोई भी सेवा करने वाले नहीं हैं, वर्तमान में देखा जाता है, उन्हों को भी अन्त में धारणा तो होनी ही है। ईश्वर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की धारणा तो होनी ही है और धारणा होगी तो जिम्मेवारी का ताज भी मिलेगा। आदि से अन्त तक वो प्रजा में ही आते रहे, ऐसे नहीं हो सकता। ज्यादा जन्मों में दास-दासी बनेंगे; लेकिन कौन-से परिवार में बनेंगे? राजपरिवार के दास-दासी बनेंगे। साहुकार प्रजावर्ग में होते हैं या राजपरिवार में? प्रजावर्ग में। तो साहुकारों के दास-दासी नहीं बनेंगे। प्रजावर्ग के दास-दासी नहीं बनेंगे, राजपरिवार के दास-दासी बनते रहेंगे और फिर जब सुधरेंगे अंतिम जन्म में या अन्त के पुरुषार्थ में, आखिरीन सारी दुनिया में आवाज फैलेगी तो आँखें खुलेंगी या बन्द रहेंगी? आँखें खुल जायेंगी। समझ जाएँगे कि हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। • “बार-2 कोई-न-कोई कर्म-इन्द्रियों के वा देहधारियों और देह के सम्पर्क से उन्हों के दास बन जाते हैं और उदास हो जाते हैं तो समझो दास-दासी बनने वाले हैं।” (अ.वा. 11.10.75 पृ.176 मध्यादि)

राजकुल के चाण्डाल - राजघराने में सबसे नीच-ते-नीच पद है चण्डाल का। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं और झूठ बोलते हैं तो नुकसान अपने को ही पहुँचावेंगे। अपना पोतामेल सही नहीं देते हैं, अपने को छुपाते हैं और दिखावा कुछ और करते हैं तो उनका अपना नुकसान होगा। गाया हुआ है- देवताओं की सभा में असुर आकर बैठते थे। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, माया किसको छोड़ती नहीं है; लेकिन एक होता है सच्चा और एक होता है झूठ। तो जो सच्चे होते हैं, वो सच्चाई से अपना पोतामेल बाप को दे देते हैं कि हमसे यह गलती होती है; हम अपन को ठहराय नहीं सकते। अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और जो अहंकारी हैं, जिनको बाबा कहते हैं- देहअभिमानी सांडे। तो जो अहंकार में आते हैं, वो अपना पोतामेल नहीं देते। तो विकार में जाए, छिपकर जाए बैठते हैं तो असुर हुए। आपे ही अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। ऐसे चण्डाल का पद पावेंगे। सबसे नीचा पद कौन-सा होता है? चण्डाल। चण्डाल क्या करता है? जो मुर्दा है, मर जाता है ना, उसको जलाने का काम चण्डाल का होता है। तो जो ज्ञान में चलते-2 अभी ब्राह्मण तो बने हैं; लेकिन मुर्दा होकर चल रहे हैं, कोई बात पर गहराई से ध्यान ही नहीं देते, जैसे मुर्दा बन पड़े हैं, कोई मनन-चितन-मंथन नहीं करना चाहते, अपनी ही दुनियादारी में

लगे रहते हैं, बाप कितनी ऊँची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, ऐसे मुर्दों को आग लगाने का काम उन चण्डालों को सौंपा जाता है। कौन हुए चण्डाल ? जो ब्राह्मणों की सभा में, ब्रह्मा बाबा के सामने या परमात्मा बाप के सामने आकर छुपकर बैठते हैं, अपने पाप-कर्म को छुपाते हैं, विकारी भी बनते रहते हैं और अपनी विकारी वृत्तियों को अहंकार में आकर छुपाते हैं तो वो चण्डाल बनते हैं।

- “जो आश्वर्यवत् भागन्ति होते वे तो प्रजा में चंडाल बनेंगे; परंतु जो यहाँ रह बहुत शैतानी, चोरी-चकारी आदि करते हैं तो वो राँयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज-पतलून मिल जाती है। यहाँ गोद तो लेते हैं ना।” (मु. 9.8.64 पृ.4 आदि)

प्रजा वर्ग के चण्डाल - अब बाबा के पास प्रजा भी नम्बरवार है। जो नीचे ते नीची प्रजा होती है, वो है चण्डाल। बहुत गरीब प्रजा होती है। गरीब और साहुकार तो होते ही हैं। तो बाबा बच्चों से एक पैसा भी नहीं लेता है। बाबा बच्चों से माँगता नहीं है। बच्चे अपना कल्याण करने के लिए, भविष्य में अपना नूँध करने के लिए स्वतः ही यज्ञ में देते हैं, स्वाहा करते हैं। बाबा को दरकार नहीं है; लेकिन कोई देते हैं और देकर फिर वापस लेते हैं (धन का मिसाल दिया), तो क्या बनते हैं? चण्डाल प्रजा बन जाते हैं। बाप का तो सबकुछ बच्चों के लिए है। बच्चों को यह कभी भी नहीं सोचना है कि हमने बाबा को दिया; बाबा तो खुद ही इतना पुरुषार्थी है कि उसे किसी से कुछ लेने की दरकार ही नहीं। जो आत्मा एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बन सकती है तो वो किसी से हाथ फैलाने की दरकार नहीं है। जो पुरुषार्थी जीवन में हरे हुए होते हैं, वो काम-धन्धा सब छोड़कर संन्यासी बनकर दरवाजे-2 भीख माँगने लग पड़ते हैं। तो बाप स्वाभिमानी तो बाप के बच्चे भी स्वाभिमानी। तो बाबा को दिया यह बुद्धि में नहीं आना चाहिए कि हम इतना देते हैं। नहीं, तुम अपने लिए इकट्ठा करते हो। बाप भी अपने लिए कुछ नहीं इकट्ठा करते और बच्चे भी अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। बाबा तो तुम्हारे धन की सिर्फ रक्षा करते हैं जो कि बच्चों को अगले जन्म में काम आ जावे। बाबा की यह बैंक है अविनाशी, जो भी देते हैं उस बैंक में इतना अविनाशी धन जमा रहता है कि यहाँ का यहाँ भी तुम्हारे काम आवेगा। बाबा वापस लेकर नहीं जावेगा। तुम्हारा लिया हुआ यहाँ ही तुमको वापस भी कर देगा और 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी दे देगा।

- “बाप कहते हैं ना जो जाकर मेरी निदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं वो प्रजा में जाकर चण्डाल बनते हैं।” (मु. 10.7.67 पृ.3 आदि)

- “कब क्रोध न करना है। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हो; क्योंकि क्रोध का भूत है।” (मु. 7.5.77 पृ.3 मध्यांत)

और फिर ऐसे भी हैं - क्लास भी करके दिखाते हैं। लोग समझते हैं- यह बड़े सर्विसएबुल हैं; लेकिन बाप की नजरें समझती हैं- ये सर्विस नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और ही डिससर्विस कर रहे हैं माने दिखावटी ज्यादा हैं। पब्लिक को रिझाए लेते हैं; लेकिन बाप को तो कोई रिझाए नहीं सकता। तो वो भक्त बनते हैं। भक्तों में यह दिखावा ज्यादा होता है। सुनना और सुनाना जास्ती होता है। पॉम्प एण्ड शो जास्ती होता है। ऐसे फिर और-2 धर्मों में कनवर्ट होने वाले भक्त बन जाते हैं। (नोट- अधिक जानकारी के लिए ‘राजधानी में कौन क्या बनेगा’ पुस्तक का अध्ययन करें।)

ऊँच पद पाने का आधार है- रेगुलर और पंक्वुअल पढ़ाई। यह भी एक सर्विस है- क्लास में टाइम से पहुँचना और रोज़ एंप्लाई। इससे बाप की ओर टीचर की दुआएँ मिलती हैं; क्योंकि वो संगठन को मजबूत बनाते हैं। कौन? जो रेगुलर और पंक्वुअल स्टूडेन्ट्स हैं। संगठन को मजबूत बनाने की वजह से वो आत्माएँ बाप की नजरों में भी ऊँची हो जावेंगी और सारे ब्राह्मण परिवार की नजरों में भी ऊँची हो जाएँगी। हो सकता है कि लास्ट में वो बहुत ऊँचा पद पा जाएँ; क्योंकि बाप के दिल पर अभी भी चढ़े हुए हैं और लास्ट में भी चढ़े हुए रहेंगे। तो वो सतयुग के आदि से ही मध्य और अन्त तक भी राजघराने में जन्म लेते रहेंगे। 16 हजार की लिस्ट में भले आएँ; लेकिन आदि से अन्त तक राजघराने की आत्माएँ बनकर रहेंगे; क्योंकि सरेण्डर बुद्धि होकर चल रहे हैं।

- “पढ़ाई से कब रूठना नहीं है। कोई से अनबनत हो तो भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने-झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे-लिखेंगे होंगे नवाब। लड़ेंगे-झगड़ेंगे तो नवाब थोड़े ही बनेंगे। वह तो फिर तमोप्रधान चलन हो जाती है।” (मु. 5.3.69 पृ.2 आदि) • “तुम बच्चों को रेगुलर बनाना है। बापदादा रेगुलर किसको कहते हैं। रेगुलर उनको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करता है वह श्रीमत के प्रमाण करता है। सब में रेगुलर।... रेगुलर चीज़ अच्छी होती है। जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है।” (अ.वा. 23.10.70 पृ.316 अंत)

- “जहाँ तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। अपसेन्ट तो कब न होना चाहिए। यहाँ-वहाँ से ढूँढ़कर, कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। बाबा जानते हैं- बहुत बच्चे हैं, अच्छे-2 नंबरवन में जिनको गिनते हैं, वह भी मुरली मिस कर देते हैं। अपना ही

घमण्ड आ जाता है। अरे, भगवान बाप पढ़ते हैं, (उ)समें तो एक दिन भी मिस न होना चाहिए। ऐसी-2 गुह्य प्वॉइन्ट्स निकलती(निकलती) हैं, जो तुम्हारा वा किसका भी कपाट खुल सकते हैं।” (मु.16.6.68 पृ.3 आदि)

- “यहाँ के नम्बरवन रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेन्ट वहाँ भी साथ-2 पढ़ेंगे; क्योंकि ब्रह्मा बाप नम्बरवन गॉडली स्टूडेन्ट है।” (अ.वा. 8.1.79 पृ.189 मध्य)

स्वयंवरपूर्व महाराजकुमार श्री कृष्ण और महाराजकुमारी श्री राधे

इसके बाद जो दूसरी मोटी-2 लिखत नीचे लिखी हुई है-‘स्वयंवरपूर्व महाराजकुमार श्री कृष्ण और महाराजकुमारी श्री राधे’। इस लिखत से भी यह साबित होता है कि ये कुमार-कुमारी (रा.कृ.) किसी महाराजा के बच्चे हैं। वो महाराजा पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है जो सारे विश्व का महाराजा बनने वाला है। तब तो यहाँ लिखा है- महाराजकुमार श्री कृष्ण और महाराजकुमारी श्री राधे। बाबा ने मुरली में कहा है- •“प्रिस का तो ज़रूर राजा-महाराजा पास ही जन्म होगा।” (मु. 21.4.72 पृ.3 मध्य)

इससे यह भी बात साबित होती है कि इन कुमार-कुमारी से पहले ही कोई इनके माँ-बाप हैं जो विश्व के महाराजा कहे जाते हैं। ये महाराजा के पुत्र हैं यानी इनके माँ-बाप पहले से ही महाराजा-महारानी हैं। वो महाराजाई किससे प्राप्त की? महाराजाई का टाइटिल उन्होंने डायरैक्ट परमपिता+परमात्मा शिव ज्योतिर्बिन्दु से अपने पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त किया। उनको विश्व की महाराजाई पद देने वाला कोई दूसरा साकार व्यक्तित्व नहीं होता। अपने ही पुरुषार्थ और परमपिता परमात्मा की याद की शक्ति के आधार पर विश्व की महाराजाई प्राप्त करते हैं। जबकि रा.कृ. को सतयुगी राजाई किससे मिलती है? डायरैक्ट परमपिता परमात्मा से नहीं मिलती है। ल.ना. को देवताओं से राजाई की प्राप्ति होती है। रा.कृ. जो सतयुगी महाराजन बनने वाले हैं वो डीग्रेड हो गए। क्यों? क्योंकि वो संगमयुगी ल.ना. डायरैक्ट परमपिता+परमात्मा से प्राप्ति करते हैं और रा.कृ. उन आदि ल.ना. यानी देवताओं से प्राप्ति करते हैं। परमात्मा से जो प्राप्ति होगी और देवताओं से जो प्राप्ति होगी उसमें अंतर तो होगा ना! यह अंतर यहाँ चित्र में दिखाया गया है।

इसी जन्म में, इसी शरीर से कंचन काया

इस चित्र का दूसरा प्वॉइण्ट है कि ल.ना. जो संगमयुग में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ये नर से प्रिस बनने वाले नहीं हैं। नर से प्रिस तो सतयुग में जाकर ब्रह्मा दादा लेखराज

बनते हैं और नारी से प्रिसेज ओमराधे ममा सरस्वती जाकर बनती हैं। बाकी जो यहाँ डायरैक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं जिन्हें राम-सीता वाली आत्माएँ समझ लिया जाए, तो वो आत्माएँ यहाँ इसी जन्म में, इसी शरीर से पुरुषार्थ करके कंचनकाया प्राप्त करती हैं। 16 कला स. रा.कृ. वाली आत्माएँ जो सतयुग में जन्म लेंगी वो तो अपने माँ-बाप से जन्म लेकर कंचनकाया प्राप्त करेंगी। वो कोई बड़ी बात नहीं; लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम सर्जन बाप शिव है उसकी दी हुई नॉलेज के आधार पर वो राम-सीता इसी जन्म में, अपने इसी शरीर से ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि शरीर छोड़े बगैर शरीर के पाँच तत्वों को कनवर्ट करते हैं, रीजिव्यूनेट करते हैं। • “कोई ऊपर से नई आत्माएँ तो नहीं आईं, जिनको भगवान ने राजाई दे दी। नहीं। इन्हों को पुराना से नया बनाया हुआ है। जिसको रिज्युविनेट वा काया कल्पतरू भी कहा जाता है।” (मु. 11.3.73 पृ.2 मध्य) अपने शरीर के पाँच तत्वों को ही रीजिव्यूनेट नहीं करेंगे बल्कि सारी सृष्टि की जो भी सामूहिक प्रकृति (नेचर) है, उसको भी सामूहिक योगबल से चेंज करने के ये निमित्त बनते हैं; क्योंकि बाबा ने अ.वा. में बोला है- “प्रकृति को जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक समझो कि विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता।” • “प्रकृति को भी पावन बनाना है, तब ही विश्व परिवर्तन होगा।” (अ.वा. 25.5.73 पृ.72 अंत)

प्रकृति माना पाँच तत्व। तो आत्मा के सम्पर्क में रहने वाले अपने शरीर के पाँच तत्व पहले सुधरेंगे या दुनियावी पाँच जड़ तत्व पहले सुधरेंगे? आत्मा के पहले सम्पर्क में कौन-सी चीज़ है? शरीर। तो अपने-2 शरीर के 5 तत्वों का नं.वार परिवर्तन होता है। अरस-परस है। दुनिया भी धीरे-धीरे चेंज होती है। दुनिया के पाँच तत्व भी चेंज होते हैं; लेकिन उनका आधार है- आत्मा से सम्बंधित शरीर का परिवर्तन। शरीर के 5 तत्वों का भी परिवर्तन होता है। यह कैसे होता है, क्या तरीका है? वो समझने की चीज है। बाबा ने मुरलियों में बताया है- • “ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू नहीं होती है। तुम सर्जन भी हो, सराफ भी हो, धोबी भी हो। सब खासियतें (विशेषताएँ) तुम्हारे में आ जाते हैं।” (मु. 14.4.68 पृ.3 अंत) • “तुम वण्डरफुल हो ना। सारे भा+रत को ही तुम निरोगी बनाते हो। वह डॉक्टर लोग भी तुम्हारे आगे क्या हैं।” (मु. 23.2.68 पृ.4 अंत)

तो जब परमपिता+परमात्मा खुद सर्जन बनकर आएगा तो दुनियावी सर्जन के मुकाबले तो अच्छी ही प्लास्टिक सर्जरी करेगा ना! उन सर्जन द्वारा की हुई प्लास्टिक सर्जरी तो इसी जन्म में खराब हो जाती है। दुबारा-तिबारा करानी पड़ती है। परमपिता+परमात्मा तो ऐसा सर्जन होना चाहिए जो एक स्थायी काम करके जाने वाला हो। बाबा भी कहते हैं- “मैं 21 जन्मों के लिए

तुमको निरोगी काया देता हूँ।” वास्तव में बाबा ऐसा सर्जन है जो 21 जन्मों के लिए तो हमारी निरोगी काया बनाता है; लेकिन योगबल के आधार पर इस जन्म के लिए भी हमारी निरोगी काया बनती है। उसके लिए धोबी का भी मिसाल दिया है “मैं ऐसा वंडरफुल धोबी हूँ, जो तुम्हरी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र या शरीर रूपी नैया दोनों को पार ले जाने वाला एक खिवैया या धोबी हूँ।” • “नानक ने भी कहा न- मूत पलीती कपड़ धोये। लक्ष्य सोप है न! बाबा कहते हैं- मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र (और आत्मा को) कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कब देखा? ” (मु. 21.5.64 पृ.3 अंत) • “वह बाप भी है, नड़या को पार लगाने वाला खेवइया भी है। ... क्या शरीर को ले जावेंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। ... इनको (शरीर सहित आत्मा को) वस्त्र भी कहते हैं, नड़या भी कहते हैं।” (मु. 3.11.68 पृ.1 मध्यादि, पृ.2 मध्यांत)

सुप्रीम धोबी है तो दुनियावी धोबियों से तो अच्छा ही होगा ना! दुनियावी धोबी भी ऐसे तो नहीं कहते कि तुम कपड़ा डाल जाओ और अगले जन्म में हमसे कपड़ा ले लेना। वो भी इसी जन्म में तो क्या 2-4 दिन के अंदर ही कपड़ा धोकर के देते हैं ना! चलो, यह स्थूल कपड़ा नहीं है, यह तो 63 जन्मों का बिगड़ा हुआ शरीर रूपी वस्त्र है। तो परमपिता+परमात्मा बाप यह गारन्टी लेते हैं; यह वंडरफुल धोबी इसी बात का है कि हमारे वस्त्र को ऐसा धोता है जो 21 जन्म तक यह निरोगी बना रहे। मतलब यह है कि वंडरफुल धोबी इस बात में नहीं है कि वो कोई अगले जन्म में कपड़ा धो करके देगा और इस जन्म में हमारा कपड़ा फाड़ देगा, नहीं।

ऐसे तो वे ब्रह्माकुमार-कुमारी जिन्होंने साकार शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा का लक्ष्य ले रखा है कि ब्रह्मा ही हमारा गुरु है, ब्रह्मा ही हमारा सब कुछ है। उससे जास्ती बढ़कर हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने नर से प्रिस बनने का लक्ष्य ही अधूरा लिया हुआ है उनके जीवन के लिए तो यह बात सम्भव है कि उनको शरीर छोड़ना पड़े; लेकिन बाबा ने हमें यह गीता वर्णित सुप्रसिद्ध लक्ष्य दिया है- नर से नारायण बनने का तो नारायण की तो जरूर कंचन काया ही होती है। इसी जन्म में हमारी कंचनकाया परमपिता+परमात्मा बनाता है। उसे बनाने का प्रोसीजर क्या होगा? वो भी बताया “सर्प का मिसाल तुम बच्चों का है।” वो तो संन्यासी लोग ऐसे ही झूठा उदाहरण उठा लेते हैं, उदाहरण देते हैं; लेकिन वास्तव में तुम बच्चों की बात है। जैसे सर्प अपनी केंचुली त्यागता है वैसे तुम बच्चे भी अपनी पुरानी खल को त्याग देंगे और नई खल नं.वार धारण करेंगे। शरीर रूपी वस्त्र ही खल है। ब्रह्मा बाबा की तरह यह शरीर रूपी वस्त्र, खल हम त्याग कर कोई हमेशा के लिए नहीं छोड़ देंगे। वास्तव में जो सर्प का मिसाल है, वो एक्युरेट

मिसाल है। सर्प जब अपनी केंचुल त्यागता है तो कोई मर नहीं जाता है, सर्प जिदा रहता है। वो अपने जीवन में तीन-चार बार खल त्याग करता है तब मरता है। • “बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खल आपे ही छोड़ देते हैं और नई खल आ जाती है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे। एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। नहीं। खल बदलने का एक ही सर्प का मिसाल है। वह खल उसको देखने में आते हैं। जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खल छोड़ देता। दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जीता ही रहता है। ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है। दो-तीन खल बदली कर फिर मर जावेंगे।” (मु.18.7.70 पृ.2 अंत) गीता में भी आया है:-

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 2/22

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करता जाता है।

यह धारणा सर्वथा गलत है कि आत्मा के सतोप्रधान बनते ही मृत्यु हो जावेगी। नहीं। सतोप्रधान आत्मा बुद्धियोग द्वारा इस शरीर से डिटैच हो जावेगी। शिवबाबा ने 25.8.74 पृ.2 की मुरली के आदि में कहा भी है- •“ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते? यहाँ तो बाप ने कहा है- तुम इस शरीर को भी भूल जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं।” जो जीते जी मरने की कला नहीं सीखेंगे, उन्हों की ही शारीरिक मृत्यु होनी है। वे स्वर्ग में जीते जी जाने के काबिल नहीं। अमरनाथ बाप के हम डायरैक्ट बच्चे तो मृत्यु पर भी विजय पाकर इच्छा मृत्यु धारण करने वाले बनते हैं। बाबा ने 8.10.68 पृ.1 की मु. के मध्यांत में कहा भी है- •“यह तो बहुत ही बड़ा वैल्युएबल शरीर है। इस (पु.संगमयुगी) शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से (विश्व की बादशाही की) लॉटरी मिलती है।” •“इस योगबल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है।” (मु.5.12.68 पृ.1 अंत)

कंचनकाया बनने की प्रक्रिया

जैसे कि सृष्टि-चक्र में बताया कि मन-बुद्धि रूपी आत्मा को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में चार आयामों से गुजरना पड़ता है। चार बार शूटिंग पीरियड में मानसिक रूप से अप एण्ड डाउन में आना पड़ता है- सतयुगी शूटिंग, लेतायुगी शूटिंग, द्वापरयुगी शूटिंग और कलियुगी शूटिंग। इन चार युगों की शूटिंग में चार कल्प समाए हुए हैं, उन चार युगों की शूटिंग में आत्मा अप में भी

जाती है और डाउन में भी आती है। तो जैसे आत्मा का संशोधन करने के लिए ये 3/4 आयाम हैं, जिनसे गुजरना पड़ता है, ऐसे ही शरीर का परिशोधन करने के लिए भी शरीर को 3/4 आयामों से गुजरना पड़ता है। एक बार में ही कंचनकाया नहीं होगी। पहले तो मन-बुद्धि रूप शक्तियों वाली आत्मा, बीज सतोप्रधान बनता है; क्योंकि जब तक आत्मा सतोप्रधान न बने तब तक शरीर सतोप्रधान नहीं बन सकते। आत्मा के लिए बाबा ने बोला है- “तुम्हारी आत्मा कंचन बनती जावेगी और शरीर सड़ते जावेंगे।” कब तक? तब तक सड़ते जावेंगे जब तक यह 500 करोड़ की विरोधी संस्कारों और वायब्रेशन वाली दुनिया मन-बुद्धि में मौजूद रहेगी। जब 500 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी, जब सिर्फ एक जैसी जाति की देवता धर्म की पक्षी आत्मस्थिति वाली नं.वार आत्माएँ इस संसार में बचेंगी तब एक वायब्रेशन हो जाएगा। और वायब्रेशन एक होने से उसमें संगठन का बल पैदा होगा, वायब्रेशन में परिवर्तन आएगा उससे (एक संगठित मानवीय) प्रकृति में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। • “विनाश होने बाद थोड़े बचते हैं। उनमें पुण्यात्मा भी रहते हैं। ...फिर हिसाब-किताब चुक्तू कर सतयुग में तो सब पावन होंगे। संगम पर कुछ पतित कुछ पावन रहते हैं, फिर पतित खलास हो फिर पावन ही पावन रहेंगे।” (मु. 7.6.64 पृ.4 आदि) तो सन् 2036 के बाद (आस-पास) ब्रह्मा की सारी सृष्टि का विनाश होगा, विरोधी आत्माएँ वापस परमधाम पहुँच जाएँगी।

सृष्टि-चक्र के चित्र में बताया था कि (सन् 2036) के बाद या उसके आस-पास आखिरी और समूल ऐटमिक विस्फोट होने के कारण पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बड़े-2 भूकम्प आएँगे, तीव्रतम डाँवाडोल होने से पृथ्वी की धुरी चेंज होगी। उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो मीलों ऊँचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघलेंगे। समुद्र का धरातल ऊँचा उठ जाएगा। जो भी बड़े-2 एशिया आदि जैसे 7 महाद्वीप हैं, वो सब समुद्र के अंतराल में समाय जाएँगे। उस समय ऐटमिक विस्फोट से जो गर्मी बढ़ेगी, उससे समुद्र का पानी खौलकर भाप बनकर ऊपर उड़ेगा तो सृष्टि पर कई दिनों तक जो मूसलाधार बरसात होगी उसके प्रभाव से सृष्टि का वातावरण जो ऐटमिक विस्फोट होने से गर्म हो गया था, वो एकदम जीरो डिग्री ठंडा हो जाएगा। इस सृष्टि पर चारों तरफ एक बार बर्फ ही बर्फ का वातावरण बन जाएगा। बर्फ में दबना भी दो तरह से है, कुछ आत्माओं के लिए संकल्प रूपी खून ही नं.वार जाम हो जाए, बिन्दु बन जाए ‘नो संकल्प एट ऑल’, ऐसा लगातार हो जाए। और दूसरा है- शरीर बर्फ में जाम हो जाए।

थोड़ी-सी बीजरूप आत्माएँ जो इस सृष्टि पर बचेंगी, वो आत्माएँ परमात्मा की याद में इतनी गहरी होंगी कि जब इस मानसी सृष्टि पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जैसी संकल्पों की भी

जाम होगी तो उसमें उनको समा जाना पड़ेगा। श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं की पहले उपराम स्टेज होगी फिर बाद में नम्बरवार बर्फ में दबेंगे। उस बर्फ में से वे श्रेष्ठ (रुद्राक्ष रूप) पुरुषार्थी (नं.वार बीजरूप) आत्माएँ अपने-2 शरीर को त्याग कर मन-बुद्धि से आत्मलोक जाएँगी। बाकी उनका निर्जीव शरीर यहाँ सुरक्षित रहेगा और अपने-2 टाइम पर नं.वार पुरुषार्थ अनुसार वो अपने शरीरों में वापस आयेंगी। ‘अंत मते सो गते’ के अनुसार जब नं वार वापस आयेंगी, तो उनकी आत्मिक स्टेज परिपक्व बनी हुई होगी। गीता में भी आया है-

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्वावभावितः ॥ 8/6

हे कुन्ती माता के पुत्र! अथवा जिस-2 (देव-दानवादि के) भाव को भी स्मरण करता हुआ, अन्तकाल में शरीर को त्यागता है, सदैव उसी भावना से युक्त हुआ उस-2 भाव को ही पाता है;

संगमयुग तो 100 साल का बताया गया है। सन् 2036-37 तक संगमयुग के 100 साल पूरे होने तक कोई-2 आत्माओं का पुरुषार्थ चलता रहेगा। उस पीरियड में जो राधा-कृष्ण को जन्म देने वाली आत्माएँ हैं, विश्व में विश्व महाराजन और विश्वमहारानी साबित होने वाले होंगे वह सबसे कम समय में अपने योगबल के आधार पर अपने शरीर के पाँच तत्वों को 18 वर्ष के अंदर ही चेंज कर देंगे। उस 18 वर्ष में (सन् 2018-2036 तक) उन्हें 3/4 आयामों से गुजरना पड़ेगा। एक बार में ही शरीर पूरा कंचनकाया 100 परसेंट नहीं बनेगा। जैसे कोई व्यक्ति लम्बे समय बीमार होता है तो उसकी ऊपर की त्वचा उत्तर जाती है और नई त्वचा आ जाती है- तो ऐसे ही होगा। एक बार परिवर्तन, दूसरी बार परिवर्तन, तीसरी बार परिवर्तन और चौथी बार में पूरी कंचनकाया बन जाती है। तो पहला इश्यू (संगमयुगी) रा.कृ. होंगे और वो कोई अकेले तो पैदा नहीं होंगे और भी बच्चे उस समय नम्बरवार पैदा होना शुरू होंगे। साढ़े चार लाख असल सूर्यवंशी जो पुरुषार्थी युगलिया बीजरूप आत्माएँ हैं, जो अपने शरीर को कंचनकाया बनाने वाले होंगे, वो परिपक्व स्टेज में तैयार हो जायेंगे और सतयुगी 16 कला रा.कृ. जैसे साढ़े चार लाख बच्चों को नम्बरवार जन्म देने के निमित्त बनेंगे।

- “अभी तो दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य हैं। (16 कला) सतयुग में जब इन ल.ना. का राज्य होता है तो वहाँ 9 लाख होते हैं।” (मु. 4.9.69 पृ.3 आदि) • “पहले-2 है देवी-देवताओं की संख्या। पहले-2 आदि सनातन देवी-देवता धर्म वाले ल.ना. आवेंगे अपनी प्रजा (पितरगण)

सहित। और कोई (धर्म के) प्रजा सहित नहीं आते। वो एक आवेगा, फिर तीसरा आवेगा।” (मु. 17.5.65 पृ.1 मध्यांत)

इस तरह ऐसी कंचनकाया से कंचनकाया जैसे शरीरधारी बच्चों की पैदाइश होगी। तो ये आदि ल.ना. जैसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी इसी जन्म में इसी शरीर को कंचनकाया बनाने वाले साबित हो जाते हैं। बाकी 16 कला रा.कृ. जैसी आत्माएँ तो अगला जन्म लेकर अपने माँ-बाप के पुरुषार्थ के आधार पर कंचनकाया की प्रॉपर्टी प्राप्त करती हैं। अपने पुरुषार्थ से कंचनकाया नहीं बनाती हैं।

फेल होने वाले राम-सीता को माता-पिता के रूप में 16 कला रा.कृ. का दास-दासी बनना पड़ेगा?

इस ल.ना. के चित्र में समझने का जो अगला प्रकरण है, वो यह है कि ल.ना. यहीं बनना है, यहीं कंचनकाया बनानी है- वो तो ठीक है; लेकिन जिनको यहीं कंचनकाया बनानी है उनके बारे में ब्राह्मणों की दुनिया में एक अपवाद चल गया है कि राम-सीता तो फेल हो गए। मुरली में बाबा ने बोला हुआ है- राम-सीता फेल हुए। तो जो फेल होने वाले राम-सीता हैं, उनको रा.कृ. का दास-दासी बनना पड़ेगा। • “राम-(सीता) को भी सतयुग के पहले ल.ना. का दास-दासी बनना पड़े; क्योंकि ल.ना. फुल पास हुए। वो फेल हुआ (आदि में); इसलिए उनको क्षत्रिय कहते हैं।” (मु. 20.5.64 पृ.3 अंत) • “भल पहले अनपढ़, पढ़े-लिखे आगे भरी ढोते हैं; परन्तु महाराजा-महारानी तो बनेंगे न।” (मु. 8.8.73 पृ.1 मध्य)

पहली बात तो यह है कि सतयुग में प्रकृति दासी होती है, वहाँ कोई दास-दासी रखने की जरूरत नहीं है; क्योंकि वहाँ तो सब श्रेष्ठ आत्माएँ हैं। यह दास-दासी बनने वाली बात यहाँ संगमयुग के अंदर की है। सतयुग में दास-दासी की बात नहीं है। संगमयुग में कुछ आत्माएँ ऐसी हैं, जो माँ-बाप (पितरगण) के रूप में दास-दासी का पुरुषार्थ करने के कारण दास-दासी साबित हो जाती हैं; क्योंकि दुनिया में भी जो बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश करने के कारण माँ-बाप को फर्स्ट क्लास दास-दासी कहा जाता है। बच्चों को जन्म देना, 9 महीने तक पेट में पालन करना, उनको पढ़ाना-लिखाना, उनकी टट्टी-पेशाब की सफाई करना, पालना करना, बड़ा करना और जब बड़े हो जाएँ तो सारी जिदगी की कमाई उन बच्चों को सौंप देना, इससे बढ़कर बढ़िया दास-दासी और कौन मिलेंगे? बाबा भी मुरलियों में कहते हैं- “बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबिडियेन्ट सर्वेन्ट।” • “बाप बच्चों का ओबीडियेंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों को पैदा कर, उनकी सम्भाल, पढ़ा..., बड़ा बनाकर, फिर बूढ़ा होता है तो सारी मिल्कियत बच्चों को देकर

खुद.....वानप्रस्थी बन जाते हैं। तो बाप-माँ बच्चों के सर्वेंट ठहरे ना।” (मु.16.10.68 पृ.1 अंत)

तो शिवबाबा ही जब हम बच्चों का मोस्ट ओबिडियेन्ट सर्वेंट बनकर आया है तो सतयुग में हम (माँ-बाप) अपने बच्चों के दास-दासी बन जाएँगे तो यह क्या हेटी बात हुई? दुनिया में यह परम्परा तो सतयुग में भी रही, लेता में भी रही, द्वापर में भी रही और कलियुग में भी है। यह कोई हेय बात नहीं है कि राम-सीता तो दास-दासी बनेंगे। बाबा तो बेहद की बातें बेहद के रूप में करते हैं। उसके हृद के अर्थ समझ लेने के कारण वो धृणा की दृष्टि पैदा हो जाती है। तो राम-सीता वाली आत्माओं ने तो नई सृष्टि में (राधा-कृष्ण जैसे) बच्चों को जन्म देने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। यह कार्य राम-सीता जैसी 4/5 लाख आत्माएँ जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं, उसके आधार पर यह सृष्टि चलती है। जैसे बीज अविनाशी होता है वैसे ही ये साढ़े चार लाख आत्माएँ पूरे 84 जन्म लेने वाले अविनाशी बीज हैं। बीज को ही बाप कहा जाता है। ये पूर्वज/पिता स्वरूप आत्माएँ जो राधा-कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देती हैं वो माता-पिता के रूप में दास-दासी बनती हैं। वास्तव में उनको सतयुग में जाकर दास-दासी का कर्म करने की दरकार नहीं है। बाबा ने भी मुरलियों में इस तरह यह बात बोली हुई है कि “माँ-बाप जैसे बच्चों के दास-दासी बन जाते हैं।” तो ल.ना. के चित्र में एक यह प्वॉइण्ट भी हल होता है कि नर से ना. और नारी से ल. बनने वाली राम-सीता की आत्माएँ माँ-बाप के रूप में दास-दासी बनेंगे।

राधा-कृष्ण का जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म

इस ल.ना. के चित्र में विशेष समझने का अगला प्वॉइण्ट है कि सतयुग में जो रा.कृ. जैसे बच्चे पैदा होंगे वो द्विन्स बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। मतलब भाई-बहन की पैदाइश साथ-2 होगी। बाबा ने मुरली में भी कहा है- • “सतयुग में तुम ही आपस में भाई-बहन थे। दूसरा कोई सम्बंध नहीं।” (मु. 4.5.74 पृ.3 अंत) इसका प्रूफ इस चित्र में भी दिया गया है। आप रा.कृ. के चेहरों को बड़े ध्यान से देखिये। क्या चेहरों में कुछ समानता दिखाई पड़ती है? दो सेम चेहरे हैं या नहीं हैं? जरूर हैं। आज की दुनिया में भी जो भी द्विस बच्चे पैदा होते हैं उनके शरीर में, उनके चेहरों में बहुत कुछ समानता देखने में आती है; क्योंकि समान पुरुषार्थी रहे हैं। थोड़ा-सा अंतर जरूर रह जाता है; क्योंकि हर आत्मा के पुरुषार्थ में थोड़ा तो अंतर होगा। तो संगमयुग में ममा और बाबा (रा.कृ.) के पुरुषार्थ में थोड़ा-सा अंतर रहा था। बाकी दोनों समान पुरुषार्थी थे। इसलिए सतयुग में भी जाकर साथ-2 जन्म लेते हैं, साथ-2 शरीर छोड़ते हैं। एक जैसा

चेहरा-मोहरा मिलता है। इस बात को सुनकर कोई-2 ब्रह्माकुमार-कुमारी जिनमें देह-अभिमान ज्यादा होता है वो कहते हैं- अरे! ये तो बड़ी छी-2 बात सुनाते हैं कि वहाँ हम भाई-बहन बनकर पैदा होंगे और फिर भाई-बहन ही बड़े होकर शादी कर लेंगे।

अरे, सतयुग में शादमाना वगैरह कुछ नहीं होता। शादी करना, शादमाना त्योहार करना, फंक्शन करना- ये सब सतयुग में करने की दरकार नहीं है। वहाँ तो रोज ही शादमाना है, रोज ही फंक्शन है। फंक्शन तो इस दुनिया में किया जाता है जहाँ आदमी दुःखी हो रहा है, तो एक दिन कोई न कोई त्योहार मना लिया, खुशी मना ली। सतयुग में अलग से कोई ऐसा दिन तैनात नहीं किया जाता, कोई ऐसा कोरोनेशन नहीं होता। शास्त्रों में तो यहाँ संगमयुग की बात है कि स्वयंवर हुआ। स्वयंवर का मतलब है- स्वयं वरण करना। वो तो बता ही दिया- संगमयुगी रा.कृ. अलग हैं और सतयुगी रा.कृ. अलग हैं। संगमयुगी रा.कृ. तो वास्तव में प्रवेशता की बात है, जिनका कलियुगी कंसी-जरासिधी के साथ शास्त्रों में वर्णन है। सतयुग में तो कंसी-जरासिधी कोई होते ही नहीं हैं। यहाँ जो चित्र है, उससे भी साबित होता है कि रा.कृ. युगलिया बच्चे हैं।

- “बच्चा किस आयु में आवेगा। वहाँ तो सभी रेग्युलर चलता है ना। वह तो आगे चल कर मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा, जैसे कि यहाँ होता रहता है। नहीं। वहाँ आयु ही 150 वर्ष होती है, तो बच्चा कब आवेगा। जब फुल जवानी होती है। आधा लाइफ से थोड़ा आगे। उस समय बच्चा आता है; क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना है। फिर बच्ची भी आनी है। कायदा होगा। पहले बच्चा या बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहते हैं पहले बच्चे की ही आत्मा आनी चाहिए। पहले मेल, पीछे फीमेल।” (मु. 29.6.68 पृ.1 अंत)

सतयुग में योगबल से बच्चों की पैदाइश

इसके अलावा बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि कृष्ण को राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। • “राधा कुमारी है, कृष्ण कुमार। तो कृष्ण (को) स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बाद ल.ना. बनें तब स्वामी कहा जाए।” (मु. 29.9.77 पृ.2 मध्य) वो जब हैं ही आपस में भाई-बहन तो स्वामी कहाँ हुए? भाई-बहन ही बड़े होते हैं तब उनके दृष्टियोग से, मुख के प्यार से संतान पैदा होती है। उसमें कोई भ्रष्ट इंद्रियों का कनेक्शन तो है नहीं। वो तो योगबल की बात है। श्रेष्ठ ज्ञान-इन्द्रियों के योग की बात है। मन-बुद्धि के आकर्षण की बात है। योगबल में किसी प्रकार का देहअभिमान न होने के कारण उनका जीवन भर आपसी प्यार भाई-बहन जैसा ही रहता है।

उसमें कोई ऐसी मूतपलीती छी-2 बात नहीं है कि भाई-बहन ही आपस में बड़े होकर पति-पत्नी बनेंगे, यह तो बहुत गन्दी बात है। देह-अभिमान होने के कारण लोगों को ऐसा बुद्धि में आता है।

- “इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी-देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा न। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है। परन्तु प्यार तो अनेक प्रकार के होते हैं। मोर डेल का भी प्यार है न। आंसू का जल है जिससे बच्चे का शरीर बनता है। एक बूँद से जानवर का गर्भ हो सकता है तो पता नहीं और भी कोई प्यार की रीति हो। तो ऐसे क्यों कहना चाहिए देवताएँ ज़रूर विकार से ही जन्म लेते हैं।” (मु.15.9.73 पृ.1 मध्य)

देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। देवताएँ भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनकी पैदाइश तो मुख के प्यार से होती है। इसीलिए आज भी हमारे भारत देश में मोर राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मोर का पंख (पूँछ) कृष्ण के मुकुट में लगाया जाता है। यह उनकी पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज हुआ। कितनी श्रेष्ठ जिम्मेवारी है भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। खुद भी पहले श्रेष्ठाचारी बनते हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो यह यादगार बनी हुई है कि देवताएँ श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्ट इन्द्रियों का आचरण नहीं करने वाले थे। भ्रष्ट इन्द्रियों की पैदाइश नहीं करते थे। वहाँ तो विकार होते ही नहीं। कौन-से कार्य नहीं होते? विपरीत कार्य = विकार, दूसरों को दुःख देने का कार्य वहाँ होता ही नहीं। वो है ही पावन दुनिया। ऐसे नहीं कि सतयुग में काम-विकार नहीं होता है। काम माने कामना, इच्छा। तो ऐसा भी नहीं है कि सतयुग में इच्छा नहीं होती है। इच्छा तो होती है; लेकिन श्रेष्ठ इच्छा होती है। ज्ञान इन्द्रियों से सुख भोगने की इच्छा होती है। ज्ञान इन्द्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो सुख किसी प्रकार के दुःख की उत्पत्ति नहीं करता। वो भी कामना है। बिना कामना के सृष्टि की पैदाइश नहीं हो सकती है। इसलिए सतयुग के पहले जन्म से लेकर 84 वें जन्म तक कामना का रूप क्रमशः विकराल होता जाता है। सतयुग में दृष्टि मात्र की कामना होती है। इसलिए देवताओं के नयन बड़े-2, शोभनिक, आकर्षक दिखाए जाते हैं। वो नैतों से ही सारा सुख भोगते हैं और नैतों के प्यार से ही बच्चों की पैदाइश होती है।

हाँ, इच्छा मात्रम् अविद्या की जो स्टेज है, वो ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में जब अतीन्द्रिय सुख की दुनिया स्थापन होती है उस समय आदि ल.ना. और ल.ना. की जो भी प्रजा होगी, उस प्रजा की ऐसी स्टेज होती है कि देह का कोई भी सुख भोगने की इच्छा या कोई भी कामना नहीं होती है। इसलिए ल.ना. के चित्र को ध्यान से देखें - ल.ना. और रा.कृ. और उनके

बच्चे, जो सतयुग में जन्म लेंगे वो खड़े हुए हैं। दोनों में क्या अन्तर दिखाई पड़ता है? रा.कृ. एक-दूसरे को देख रहे हैं। उनका अव्यभिचारी प्यार है नयनों का और संगमयुगी ल.ना. एक-दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। इष्टि माल से कोई भी सुख भोगने की इच्छा नहीं; क्योंकि जो नैन हैं वो भी देह का अंग है। देह का कोई सुख लेने की इच्छा नहीं है। ‘इच्छा मात्रम् अविद्या’ की स्टेज में टिके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कामना ही सतयुग में होती नहीं है। इसलिए रामायण में बोला है-“हुइहै काम अनंग, विनु वपु व्यापै सभै को”। बिना शरीर के सबको व्याप्त होगा। वो ऊँच ते ऊँच संगमयुग की स्टेज दिखाई गई है, कि शरीर भल स्मृति में नहीं है; लेकिन वायब्रेशन में एक-दूसरे के प्रति प्यार समाया हुआ है। जो ल.ना. का प्यार है वो वायब्रेशन का प्यार है। देह का प्यार नहीं है।

“तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, कृष्ण को सम्पूर्ण निर्विकारी कहते हो ना। तो जरूर सम्पूर्ण निर्विकारी का बच्चा होगा। योगबल से पैदाइश होगी। देखो, परीते का झाड़ है। मेल फिमेल एक दो के बाजू में होने से बच्चा पैदा हो जाता है। मेल फिमेल बाजू में न होंगे तो बच्चा होगा नहीं। वन्डरफुल बात है ना। तो वहाँ क्यों नहीं योगबल से बच्चा हो सकता है। जैसे मोर-डेल का मिसाल है। उनको कहते ही हैं- नेशनल बर्ड। प्रेम के आँसू से गर्भ हो जाता है। यह विकार तो नहीं हुआ ना।” (मु. 2.12.71 पृ.3 आदि)

जब स्वर्ग में जावेंगे तो स्व स्थिति में ग, ग माने गए। स्वर्ग का अर्थ क्या हुआ? स्व+ग, स्व स्थिति में जो गया, वो जैसे स्वर्ग में गया। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की स्टेज वालों को वो कामना रूपी कुत्ता सात्त्विक स्टेज में साथ जायेगा। ऐसे नहीं कि साथ में नहीं जायेगा। इसलिए शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि पांडवों ने जब स्वर्गारोहण किया तो कुत्ता भी साथ में गया।

सतयुग में अनेक संबंध नहीं होंगे

बाबा ने बोला हुआ है कि सतयुग में अनेक सम्बन्ध नहीं होंगे। सम्बन्ध बहुत हल्के होंगे। माँ-बाप और भाई-बहन, दूसरा कोई सम्बन्ध नहीं। • “वहाँ यह साला, भान्जा, चाचा आदि बहुत (सम्बंध) नहीं होते। सम्बंध बहुत हल्के होते हैं।” (मु.12.10.74 पृ.3 मध्यांत)

• “सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई-बहन थे। दूसरा कोई सम्बंध नहीं।” (मु.22.5.69 पृ.3 अंत)

इसका फाउन्डेशन बाबा ने यहाँ संगमयुग में डाल दिया है। हम ब्राह्मणों की दुनिया में हमारा आपस में क्या सम्बन्ध है? हमारा आपस में सम्बन्ध है- ब्रह्माकुमार-कुमारी-भाई-बहन

और हमारे मात-पिता (जगतमाता और जगतपिता) का। बस, दूसरा कोई सम्बन्ध नहीं। बाकी हमारे सब सम्बन्ध यहाँ कैन्सिल हो जाते हैं। हमारे यही संस्कार सतयुग में भी जावेंगे। वहाँ भी ढेर सम्बन्ध थोड़े ही होंगे। और जब वहाँ ढेर सम्बन्ध नहीं होंगे तो नाना, चाचा, मामा, काका, ताऊ- ये सम्बन्ध तो खलास हो ही जाते हैं। अगर वहाँ भी ये सम्बन्ध होने लगे तो वहाँ भी दुःख की दुनिया पैदा हो जाएगी। मान लो, जैसे संगम में कृष्ण के माँ-बाप अलग राजाई के और राधा के माँ-बाप अलग हों तो कृष्ण की अलग से कोई बहन भी होगी और राधा का कोई भाई भी होगा। बाद में अगर उनका स्वयंवर हो, उनकी शादी हो तो फिर साला, भांजा भी होंगे फिर चाचा, नाना भी बनेगा। फिर तो कलियुगी दुनिया के सारे ही सम्बन्ध शुरू हो गए। तो ऐसा वहाँ नहीं होता। चिल में हेडिंग दिया हुआ है- महाराजकुमार श्री कृष्ण तथा महाराजकुमारी श्री राधे। तो क्या सतयुगी दुनिया में भी दो महाराजा होंगे? बाबा तो सारे विश्व में एक राज्य की स्थापना करने आया है। सारे विश्व में एक राजा, एक धर्म, एक मत, एक भाषा होगी- ऐसा हमको लक्ष्य दिया है। तो क्या रा.कृ. के माँ-बाप अलग-2 होंगे? विश्व में दो महाराजा होंगे क्या? नहीं, वास्तव में शिवबाबा जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, उसमें एक ही महाराजा और एक ही महारानी होगी। उन्हीं महाराजा-महारानी से राधा-कृष्ण का जन्म द्विस रूप में, युगलिया बच्चों के रूप में होता है। उन्हीं महाराजा-महारानी की तरह जितने भी युगल वहाँ होंगे उन सबके युगलिया बच्चे पैदा होंगे।

सतयुग में जनरेशन कैसे बढ़ेगी?

कोई प्रश्न करते हैं कि जब सबके युगलिया बच्चे ही पैदा होंगे, दो माँ-बाप से दो बच्चों का ही जन्म होगा तो अगली पीढ़ी में जनरेशन बढ़ेगी कैसे? सतयुग की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? तो उसका परिहार बाबा ने मुरली में कर दिया है। बाबा ने बोला है कि जो रॉयल फैमिली होती है उसमें रॉयलटी ज्यादा होने के कारण दो ही बच्चे पैदा होंगे। थर्ड-फोर्थ क्लास कैटेगरी की प्रजा भी होती है, उसकी संख्या भी ज्यादा होती है। उनमें से कोई-2 माँ-बाप से दो-दो युगलिया बच्चे भी पैदा होते हैं। एक ही जीवन में दो बार द्विस का जन्म होता है। एक ही माँ-बाप के सारे जीवन में चार-2 बच्चे भी होंगे; लेकिन सतयुग के आदि में वो कार्य कम तादाद में होगा और सतयुग के अंत की पीढ़ियों में वो द्विस बच्चे दो-2 बार जन्म लेने वाले ज्यादा तादाद में होंगे। इस तरह धीरे-2 आबादी बढ़ती है। • “सतयुग, लेता में तो होता ही है एक बच्चा, एक बच्ची। पिछाड़ी में करके थोड़ी गड़बड़ होती है। परन्तु विकार की बात नहीं।” (मु.12.12.76 पृ.1) •

सतयुग में इतने बच्चे होते नहीं। करके मुश्किल से कोई को ३ (बार) हो। पीछे आस्ते-२ बच्चे जास्ती होते हैं। (मु. 23.9.71 पृ.२ आदि)

सतयुग का वर्णन

सतयुग का अर्थ ही है- जो भी प्रकृति के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं,... सम्बन्ध के सुख हैं, जो भी सुख होते वह सब (सदा) हाजिर हैं। तो अब सोचो प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, सम्बन्ध का सुख क्या होता है - ऐसे इमर्ज करो। जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे-ते-अच्छा दिखाई देता है - वह सब चीजें पवित्र रूप में सम्पन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहाँ होंगी। चाहे धन कहो, तन कहो, मन कहो, मौसम कहो, सब प्राप्ति जो श्रेष्ठ-ते-श्रेष्ठ है उसको ही सतयुग कहा जाता है।... वहाँ (यथा) राजा (तथा) प्रजा समान होते हुए भी सारा राज्य परिवार के रूप में चलता है। यह नहीं कहेंगे कि यह दास-दासी हैं। नम्बर होंगे, सेवा होंगी; लेकिन दासी है इस भावना से नहीं चलेंगे। जैसे परिवार के सब संबंध खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब-किताब से नहीं। परिवार की लेन-देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे। गिफ्ट ही समझो। जैसे परिवार में नियम होता है- किसके पास ज्यादा चीज़ होती है तो सभी को बाँटते हैं। हिसाब-किताब की रीति से नहीं। कारोबार चलाने के लिए कोई को कोई छूटि मिली हुई है,... जैसे यहाँ मधुबन में है ना। कोई कपड़े सम्भालता, कोई अनाज सम्भालता, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना। लेकिन चार्ज वाले तो हैं ना। ऐसे वहाँ भी होंगे। सब चीजें अथाह हैं, ...कमी तो है ही नहीं। जितना चाहिए जैसा चाहिए वह लो। सिर्फ बिज़ी रहने का यह एक साधन है। वह भी खेल-पाल है। कोई हिसाब-किताब किसको दिखाना तो है नहीं। यहाँ तो संगम है ना। संगम माना एकानामी। सतयुग माना-खाओ, पियो, मौज उड़ाओ। इच्छा मालम् अविद्या है। जहाँ इच्छा होती वहाँ हिसाब-किताब करना होता। इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है। वहाँ इच्छा भी नहीं, कमी भी नहीं। सर्व प्राप्ति हैं और सम्पन्न भी हैं तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे नहीं अच्छी चीज लगती तो ज्यादा ले ली। भरपूर होंगे। दिल भरी हुई होंगी। सतयुग में तो जाना ही है ना। प्रकृति सब सेवा करेगी। (अ.वा.14.1.84 पृ.16 अंत पृ.17 आदि)

- “सिवाय एक धर्म के और कुछ भी न रहेगा। सिर्फ भारत ही रहेगा। अगर होंगे भी तो पहाड़ ही होंगे। शायद पहाड़ भी ढक जाते होंगे। अगर जलमई कहें तो क्या इतने-२ ऊँचे-२ पहाड़ियाँ हैं हिमालय आदि क्या यह सब चले जावेंगे? इतना पानी ऊँच चढ़ जावेगा। वहाँ तो तुमको कहाँ

पहाड़ों आदि भी जाने की दरकार नहीं रहती। ऐसे नहीं तुम कहाँ घूमने जावेंगे। कहाँ भी जाने की दरकार नहीं। कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं।” (मु.9.2.68 पृ.2 मध्यांत)

- वह सृष्टि ही नई बन जावेंगी। वहाँ कितने अच्छे-2 फल-फूल होते हैं। हर चीज़ वहाँ अच्छी होती है। गंद करने, दुख देने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं। इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। (मु.3.7.73 पृ.2 मध्य)

- “नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहाँ तो मैले आदि कोई चीज़ होती ही नहीं। ऐसी मिट्टी ही नहीं होती तो (जो) मैला हो। न ऐसी हवाएँ ही लगती हैं, जो मकानों को खराब करें। कचड़ा वहाँ होता ही नहीं। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है।” (मु.9.2.68 पृ.3 मध्यादि)

- “पक्षी जनावर आदि सभी सतोप्रधान होते हैं। वह भी निडर बन जाते। यहाँ तो बुलबुल अथवा चिड़ियाँ मनुष्य को देखकर भागते हैं। वहाँ तो शेर-बकरी को भी डर नहीं रहता। तो ऐसे-2 अच्छे पक्षी तुम्हारे आगे घूमते-फिरते रहेंगे। वह भी कायदेसिरे। ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस आवेंगे। गंद करके जाएँ, नहीं। बहुत कायदेवान दुनिया बन जाती है।” (मु.12.8.68 पृ.1 मध्य)

- “स्वर्ग में क्या-2 होगा। वहाँ थोड़े ईंट मिट्टी आदि होगी जिसमें पैर खराब हो। वहाँ तो जमीन पर भी घास के जैसे गलीचे बिछाये हुए होंगे। जिस पर चलते होंगे। प्रजा भी ऐसे ही चलती है। तुम बच्चे समझते हो हम नई दुनिया में होंगे। जहाँ कोई किसम की मिट्टी आदि ना होंगी जो दाग हो। ऐसी कोई चीज़ न होंगी जो ठोकर आदि लगे। स्वर्ग में तो क्या लगा पड़ा होगा। कितनी रोशनी होंगी। बत्ती भी देखने में नहीं आवेंगी। सोझरा ही सोझरा होगा।” (मु.9.3.71 पृ.1 मध्यांत)

- “तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो। हीरे जवाहरों के महल होते हैं वहाँ। अमेरिका, रशिया आदि में कितने साहुकार हैं। परन्तु स्वर्ग जैसे सुख हो न सके। सोने की ईंटों के महल तो कोई बना न सके। सोने के महल होते ही हैं सतयुग में। यहाँ सोना होता ही कहाँ? वहाँ तो लेट्रिन में भी जवाहर लगे हुए होंगे। यहाँ तो सोना है ही कहाँ। हीरों का भी कितना दाम हो गया है।” (मु.5.3.70 पृ.1 अंत)

- “कितने बड़े-2 मकान 50 मंजिल, 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतने मंजिल की मकान आदि होते ही नहीं। आजकल यहाँ यह बनाते रहते हैं। तो मनुष्य समझते हैं सतयुग में भी ऐसे मकान नहीं होते हैं जैसे यहाँ हम बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं इतना झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहाँ माड़ियाँ आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर के ढेर

जमीन पड़े रहते हैं। यहाँ तो जमीन है नहीं। इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहाँ तो जमीन का भाव लगता ही नहीं। न तो म्युनिसीपैलिटी का टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकते हैं। वहाँ तुमको सभी सुख मिल जाते हैं, सिर्फ बाप की इस एक नालेज से। मनुष्य 100 माड़ियाँ आदि बनाते हैं उसमें भी पैसा तो लगता है ना। वहाँ पैसे आदि लगते ही नहीं। अथाह धन रहता है। पैसे का कदर ही नहीं। ढेर के ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने के, हीरे के, मोतियों के महल बना देते हैं।” (मु. 27.6.69 पृ.1 आदि) • “वह सूर्य, चाँद और सितारे आदि तो हैं ही हैं। सतयुग में भी है तो अभी भी हैं। इनका बदल सदल नहीं होता।” (मु. 12.7.76 पृ.2 अंत) • “वहाँ तो मंदिर, म्युजियम होते नहीं। नैचुरल ब्युटी होती है। मनुष्य बहुत थोड़े। सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हर एक को अपना-अपना फर्स्टक्लास बगीचा होता है, फर्स्टक्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्टक्लास होगी। कब तंग नहीं करेंगे। वहाँ सदैव बहारी मौसम रहेगी। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं।” (मु. 12.6.74 पृ.2 अंत) • “ऐसी सफियतें होंगी जो न गर्मी न ठंडी होंगी।.... वहाँ तो गर्मी का दुख ही नहीं, जो पंखे आदि हों। उसका तो नाम ही है स्वर्ग। हैविन। वहाँ अपार सुख होते हैं।” (मु. 16.4.68 पृ.3 मध्यांत) • “आपके ये फैरेन के स्थान बहुत छोटे-2 टापू बन जाएँगे, जहाँ (पु.संगम में) पिकनिक करने जाएँगे।” (अ.वा. 31.12.70 पृ.336 मध्य) • “जो गाया हुआ है देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रतनों की थालियाँ भर कर आये। पृथ्वी और सागर यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती, हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियाँ भरकर आये। थाली में बिखरी हुई चीज़ इकट्ठी हो जाती है ना। तो यह भारत और आस पास यह स्थान थाली बन जायेंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे।” (अ.वा.4.2.80 पृ.269 अंत) • “बाप कितना समझाते हैं सतयुग में बीमारियाँ आदि होती ही नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ अनगिनत हैं। कितनी दवाईयाँ डॉक्टर लोग देते हैं। वहाँ यह खाँसी आदि कुछ भी नहीं होती। सेन्सीबुल बच्चे झट समझेंगे बरोबर ऐसे हैं।” (मु. 10.8.68 पृ.1 मध्यांत)

- “सतयुग में यह भूत प्रेत आदि कुछ भी नहीं होगा।” (मु. 4.3.69 पृ.1 अंत) • “अभी तक हिन्दी नहीं समझते हो! क्योंकि सतयुग में जाना है, वहाँ आपकी यह (सिधी) भाषा नहीं होगी। आप सबकी आदि भाषा हिन्दी है ना। तो बोलना नहीं भी आवे तो समझना तो आवे ना। समझने के लिए पुरुषार्थ करो; क्योंकि बाप जिस भाषा में बोलते हैं वह भाषा तो समझनी चाहिए ना। वैसे भी देखो अगर इंग्लिश बोलने वाले माँ-बाप होंगे तो बच्चे भी क्या सीखेंगे? तो

बाप की भाषा तो समझनी चाहिए।” (अ.वा.9.12.93 पृ.57 आदि.) • “कलियुगी दुनियाँ के कोई भी रसम-रिवाज़ वहाँ होते नहीं। यहाँ होती है लोक-लाज कुल की मर्यादा..... फर्क है ना। वहाँ के मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है। यहाँ तो है असत्य मर्यादा।” (मु.7.6.68 पृ.1 मध्यादि) • “सतयुग-लेता में कोई पतित होता नहीं उसको कहा ही जाता है स्वर्ग।” (मु. 3.6.79 पृ.2 मध्य.) • “वहाँ (सतयुग में) तो बड़ी फर्स्टक्लास सफाई रहती है।..... ऐसे भी नहीं कि हड्डियाँ नदियों में आदि में डालते होंगे। वहाँ यह रसम रिवाज होंगी ही नहीं। शरीर को उठाया और डाला.... ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठाकर ले जायेंगे। यह तकलीफ की बात होती नहीं। बिजली में डाला, खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं। याद करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं। वहाँ यह कोई भी बात नहीं होगी।” (मु.3.11.71 पृ.2 मध्यांत) • “सतयुग में तुम पवित्र रहते थे। उसको कहा ही जाता है पवित्र दुनिया। एक बच्चा होता है। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीरकर निकालते हैं। सतयुग में ला बना हुआ है। जब समय होता है तो दोनों को सा. हो जाता है। अब बच्चा होने वाला है। इसको कहा जाता है योगबल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता। कोई तकलीफ नहीं। कब रोने का आवाज़ नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चे पैदा होते हैं। यह है ही दुःखधाम। सतयुग है सुखधाम।” (मु.8.8.65 पृ.2 मध्यांत) • “स्वर्ग में मोह होता नहीं। वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो बैठे-2 खुशी से छोड़ देते हैं। शरीर भी टाइम पर छोड़ते। स्त्री कब विडो (विधवा) बनती नहीं। जब टाइम पूरा होता है, बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब फिर जाकर बच्चा बनेंगे। फिर वो भी बूढ़े बन जाते हैं तो शरीर छोड़ देते हैं सर्प का मिसाल।” (मु.8.8.65 पृ.2 मध्यांत) • “वहाँ कब अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती हैं। गर्भ में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पा रहे हो। जानते हो वह है अमरलोक। ... वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे-2 खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है।” (मु.10.4.70 पृ.1 मध्य) • “वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो सा. होगा हम बच्चा बनते हैं। खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। बैठे-2 शरीर छोड़ देते हैं। जाकर बच्चा बनते हैं। बाजे आदि बजते रहते हैं। दुःख की कोई बात नहीं। गुल-2 बच्चा निकलता है। गंद आदि कुछ नहीं। बिल्कुल स्वच्छ रीति निकलते हैं।” (मु.21.9.75 पृ.3 मध्यादि) • “यह गायन भी है स्वर्ग में सुख बहुत होते हैं। आयु भी बड़ी होती है। अकाले मृत्यु नहीं होती।” (मु. 3.9.69 पृ.2

अंत) • “इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगार हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सभी ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो कितने नंगी रहती हैं, जो कोई भल देखे और हमारे पर फिदा होकर हमारा भी काला मुँह करें, अपना भी करें। यह छी-2 बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इस ल.ना. को देखो ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सभी हैं देह-अभिमानी। इन्हों को देह-अभिमानी नहीं कहेंगे। इन्हों की तो नेचरल ब्यूटी रहती है। बाप तुमको ऐसा नेचरल ब्यूटीफुल बनाते हैं।” (मु. 5.12.68 पृ.2 आदि) • “इतना बड़ा तो ल.ना. होते नहीं। बहुत बहुत 6 फुट होंगे।” (मु.31.1.73 पृ.3 आदि) • “लक्ष्मी-नारायण की पतली कमर कहाँ है? ठीक जैसे होते हैं तैसे होते हैं। ये सभी नॉनसेन्स निकली हुई है कहाँ-2 से। भक्तिमार्ग में जो किस्म-2 के चित्र बनाए हैं तो समझते हैं वहाँ देवताएँ ऐसे थे। देवताएँ एकदम हूबहू (ऐसे हैं) जैसे अभी इस समय में अच्छे, खूबसूरत, नेचुरल ब्यूटी बच्चे हैं; क्योंकि बाबा ने समझाया है ना कि पाँच तत्व इस समय में तमोप्रधान हैं, जिनसे शरीर बनते हैं। वहाँ सतयुग में सतोप्रधान हैं, तो उनसे काया कल्प वृक्ष समान।” (मु.17.9.64 पृ.5 आदि) • “आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। यहाँ तो आर्टिफिशियल फैशन है। पाउडर आदि लगाकर सुहेनी बन जाती हैं। वहाँ तो नैचुरल ब्युटिफुल होते हैं।” (मु.12.6.74 पृ.3 मध्यांत) ‘वहाँ शरीरों की कोई मरम्मत नहीं होती है जितनी यहाँ करते हैं। कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भले बुड़े भी हो जाओ, तुम्हारे दाँत वगैरह सब साबूत। मजाल है जो वहाँ कोई का एक दाँत टूट सके! लॉ नहीं कहता है; क्योंकि दाँत टूटा तो डिस फिगर हुआ। यानी देखने में कुछ बुरा लगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। एकदम 16 कला सम्पूर्ण। शरीर भी ऐसा फर्स्ट क्लास। कभी झूँझा, चूचे, चंगाले या लंगड़े-लूले होते ही नहीं हैं। यहाँ तो लंगड़े-लूले जन्म भी ले लेते हैं, अंधे भी जन्म ले लेते हैं, दो-चार मत्थे वाले भी जन्म ले लेते हैं, वहाँ बिल्कुल ही एकयुरेट। (मु.17.9.64 पृ.5 मध्यादि) • “वहाँ आत्मा प्योर होने से शरीर भी मरम्मल जैसा होता है। नो डिफेक्टेड।” (मु. 27.2.68 पृ.3 मध्यादि)

• “सतसुग में सब कर्मइन्द्रियाँ निर्विकारी बन जाती हैं। अंग-2 सुगंधित हो जाते हैं। अभी तो बाँसी छी-2 अंग हैं। अभी तो सब कर्मइन्द्रियों में बदबुए हैं। यह शरीर कोई काम का नहीं।” (मु.12.7.74 पृ.1 अंत, पृ.2 आदि)

वहाँ नैचुरल ऐसे-2 पंछी होंगे जिसकी आवाज ही साज़ होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे का होगा; लेकिन वहाँ थकान नहीं होगी। जागेंगे सवेरे ही; लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत बन रहेंगे। कोई हार्ड वर्क तो वहाँ होगा नहीं। न हार्ड वर्क होगा, न

हार्ड बुद्धि का वर्क होगा और न किसी प्रकार का बुद्धि में बोझ होगा। इसलिए वहाँ जागना और सोना समान होता है। जैसे अभी सोचते हो न कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ यह संकल्प ही नहीं होगा।

नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगाजल जिसका पहाड़ों की जड़ी-बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी-बूटियों के समान बूटियाँ होंगी तो वहाँ से जल आने के कारण नैचुरल खुशबू वाला होगा। इत डालेंगे नहीं; लेकिन नैचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियाँ होंगी जो सुन्दर खुशबू वाला जल मिलेगा।

फल ऐसी वैराइटी रसना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग-2 नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना बनाते हो, वैसे वहाँ नैचुरल फल भिन्न-2 रसना के होंगे। अलग-2 प्रकार की रसना तैयार नहीं करनी पड़ेगी। यह शुगरमिल वगैरह वहाँ नहीं होंगी; लेकिन वहाँ शुगरफल होगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी नैचुरल फल से बना सकते हो।

नैचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हरेक फल इतना भरपूर होगा जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना। ऐसे फल उठाया, जरा-सा दबाया और रस पी लिया।

दूध की तो नदियाँ होंगी। पानी की नदियाँ नहीं होंगी, नदियाँ दूध की होंगी। दूध की नदियाँ, यह एक मुहावरा है- ‘दूध-धी की नदियाँ बहती हैं’। वास्तव में दूध की नदियाँ नहीं होती हैं; लेकिन गायों से दूध इतना जास्ती निकलेगा जैसे विलायती गाएँ, जरसी आदि गाएँ ढेर सारा दूध देती हैं, वैसे ऑटोमैटिक उन गायों से इतना दूध मिलेगा जैसे चारों तरफ परनाले बह रहे हो।

जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज़ आर्टिफिशल बनाते हैं वैसे पंछियों की बोली वैराइटी साज़ की होगी। चेतन खिलाने के समान अनेक प्रकार के खेल वो पक्षी आपको दिखाएँगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न-2 प्रकार की बोलियाँ सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे ही वहाँ के पंछी भिन्न-2 सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे।

वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल होती है। खेल-2 में पढ़ाई पढ़ेंगे; क्योंकि अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना। तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है; लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की ड्राइंग है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा आदमी हो, सब आर्टिस्ट होंगे, सब चिलकार होंगे। अच्छी-2 चिलकारी करते रहेंगे। साज होंगे, चिलकार चिलकारी करेंगे और खेल खेलेंगे। साज

अर्थात् गायन विद्या के संगीत गायेंगे, बहुत से खेल खेलेंगे और इन्हीं खेल-2 में पढ़ाई भी पढ़ते रहेंगे।

नाटक भी करेंगे, बाकी वहाँ सिनेमा आदि नहीं होंगे। नाटक होगा और नाटक हँसी के, मनोरंजन के होंगे। दुखदायी नाटक नहीं होगा जिनका अन्त दुख में होता हो। तो नाटकशालाएँ काफी होंगी। एक-दो नाटकशालाएँ नहीं, ढेर-की-ढेर नाटकशालाएँ होगी और सभी अच्छे नाटकबाज होंगे।

वहाँ दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा। सबके अन्दर मालिकपने का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक-दूसरे की चीज का एक्सचेन्ज करेंगे। कुछ देंगे, कुछ लेंगे और कमी तो किसी बात की भी नहीं होगी।

ड्रेस बनाने वाले दर्जी भी वहाँ नहीं होंगे, जो मेहनत करनी पड़े। हाँ, जैसा-2 कार्य होगा वैसी-2 ड्रेस पहनेंगे। जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस पहनेंगे। पहाड़ी स्थान होगा तो पहाड़ जैसी ड्रेस, मैदानी स्थान होगा तो मैदान जैसी ड्रेस, जल में स्नान कर रहे होंगे तो वैसी ड्रेस। भिन्न-2 प्रकार की ड्रेसिज होंगी।

वहाँ हीरे ही भिन्न-2 रंग के ल्यूब्स के मुआफिक चमकेंगे। हरेक का महल रंग-बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा।

सतयुग में महल-माड़ियाँ-अटारियाँ नहीं होती हैं। सतयुग में तो मकानों की दरकार ही नहीं। मकान तो वहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ सर्दी और गर्मी होती है, जहाँ देहअभिमान होता है, जहाँ विकार होते हैं, जहाँ ईर्ष्या-द्रेष होता है वहाँ दीवारें खड़ी की जाती हैं। स्थूल मकान वहाँ सतयुग में बनाने की कोई बात होती नहीं। वहाँ तो मौसम ही सदाबहार होता है।

वहाँ तो जानवर भी एक-दो को सुख देने वाले होते हैं। जितने भी गंदे जीवड़े हैं वो वहाँ नहीं होंगे। वहाँ सब सुन्दर-सुखदायी जीवड़े होंगे। कीड़े-मकोड़े तो वहाँ होंगे ही नहीं।

भाषा तो बहुत शुद्ध हिन्दी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा। शब्द बोलने से ही उसका अर्थ क्लीयर हो जाएगा।

10 वर्ष की घोषणा। भारत अर्थात् राम-सीता वाली आत्माओं के लिए

इस चित्र के नीचे संदेश में लिखा हुआ है कि “आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है और होवनहार विश्वयुद्ध के पश्चात सूर्यवंशी श्री ल., श्री ना. का राज्य शीघ्र ही आने वाला है।” यह लिखत इस बात को साबित कर देती है कि जब यह चित्र

सन् 1966 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद छपाया गया था, जिस समय प्रजापिता की बात आई है। पुराने लिमूर्ति और झाड़ के चित्र में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के साथ ‘प्रजापिता’ शब्द एड नहीं है। ल.ना. और सीढ़ी के चित्र सन् 1966 से बने हैं, उनमें प्रजापिता शब्द एड है- प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय। इससे यह साबित होता है कि यह चित्र पहली बार सन् 1966 में ही तैयार हुआ है और सन् 1966 में यह 10 वर्ष की घोषणा कराई गई है। • “तुम ब्रह्माकुमारियाँ कहती हो हम भ्रष्टाचारी भारत को 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बनावेंगी।” (मु.30.8.66 पृ.1 आदि) • “जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें तारीख लिखनी है। आज से यानी 1966 से 10 वर्ष के अन्दर हम अपनी इस भारतभूमी को स्वर्ग बना कर छोड़ेंगे।” (मु.13.8.66 पृ.1 आदि) • “हम अखबार में क्या डालें। यह भी तुम लिख सकते हो यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है, आकर समझो। कल्प पहले मिसल इस महाभारत लड़ाई से सतयुग की स्थापना कैसे होती है, आकर समझो। 10 वर्ष में देवी-देवताओं की राजधानी स्थापन हो जावेगी। गॉड फादर से वर्थ राइट लेना हो तो आकर लो।” (मु. 24.11.66 पृ.2 मध्यांत) जो घोषणा का काल सन् 1976 में पूरा होता है। सन् 1976 में यह 10 वर्ष के अंदर भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाना चाहिए; लेकिन एक तो इसका हृद का अर्थ है। हृद का अर्थ लगाने वाले ब्रह्माकुमार-कुमारियों ने यह समझ लिया कि- सन् 1976 में तो भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हुआ ही नहीं। सारे भारत में होना तो दूर है, एक ब्रह्माकुमार-कुमारी भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जिसमें यह भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हुआ हो, और सन् 1976 में मनुष्य से कोई देवता बना हो; इसलिए इस चित्र को बिगाड़ दो अथवा इस चित्र में जो 10 साल की जो घोषणा लिखी हुई है इसको बिगाड़ दो। तो उन्होंने 10 साल के ऊपर काला चिप्पा लगा दिया या तो चित्र को ही उड़ा दिया। लेकिन ये सब (करने) की जरूरत नहीं थी।

“बेहृद का बाप बेहृद के बच्चों से बेहृद की बातें करते हैं।” भारत शब्द कोई भारत की जमीन के लिए या भारत की 70/80 करोड़ मनुष्यात्माओं के लिए लागू नहीं होता है। यह भारत माता कहा जाता है। इससे साबित है कि जरूर कोई माता है जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। जिसके लिए पहली अव्यक्त वाणी 21.1.69 पृ.24 आदि में बोला हुआ है • “भारत माता (शिव) शक्ति अवतार अंत का यही नारा है।” वो शिव की शक्तियाँ ही निकलेंगी जो सारे विश्व में से विकारों का खलासा करेंगी, भ्रष्टाचार को दूर करेंगी। संघारकारिणी गाई जाती हैं; लेकिन यहाँ तो सन् 1976 की बात है कि सन् 1976 में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होना

चाहिए। वास्तविकता यह है कि बाबा ने जो बात बोली थी कि भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का 10 वर्षों में अंत होगा, वो गुप्त शक्ति वास्तव में सन् 1976 से ही श्रेष्ठाचारी पार्ट बजाना शुरू करती है। उसमें से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हुआ पड़ा है। प्रैक्टिकल कर्मणा की जीवन में कोई देवी नहीं बन जाती। देवी-देवताओं की प्रत्यक्षता तो युगल रूप में होगी। सिंगल रूप में प्रत्यक्षता नहीं होती; लेकिन इस बात का प्रूफ है कि प्योरिटी से यूनिटी जरूर देखने में आती है। जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ यूनिटी जरूर होगी। प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी भी नहीं होगी। बाबा ने रानी मकर्खी का मिसाल दिया है कि जब शहद की एक रानी मकर्खी उड़ती है तो उसके पीछे सारा झाड़ जाता है। • “तुमको मालूम है टिंडुओं का झुंड कितना बड़ा होता है। सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जायेंगे। मधुमक्खियाँ भी ऐसी होती हैं। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगी उनके पिछाड़ी। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ। उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हमजिन्स पर।” (मु.17.11.91 पृ.2 आदि) • “मार्खी (शहद) की मक्खियाँ होती हैं, उनमें भी कीन होती है। बाकी सब उनके आसुक होती है। कीन गई तो उनके पिछाड़ी सब भागेगी। लव है ना। कितनी समझ है उनमें।” (मु.20.1.74 पृ.3 अंत) • “सबसे तीखा झुण्ड मधुमक्खियों का होता है। बहुत आपस में एकता होती है। इन्हों का हेड रानी होती है। भारत में भी पहले-2 रानी पीछे राजा; इसलिए मदरकन्ट्री कहते हैं।” (मु.24.6.68 पृ.2 मध्यादि) • “मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे-2 सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात् माँ साथ उनका कितना संबंध है।” (मु. 3.6.76 पृ.2 आदि)

वास्तव में बात इस यज्ञ की है। रानी मकर्खी तो सन् 1976 से ही तैयार हुई पड़ी है। सिर्फ उसके द्वारा संगठन रूपी एक छत्ता छोड़कर दूसरा छत्ता बसाने की बात है। “लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन-देवी अर्थात् दाता का रूप संगमयुग का यादगार है जो सदैव धन देते रहते हैं। यह संगमयुग पर अविनाशी धन-देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो देंगे किसको? यह संगमयुग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरे तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी (संगम में) भविष्य की निशानी है और धन-देवी संगमयुग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है; क्योंकि संगमयुग छोटा-सा युग है; लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे-से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियाँ, बहुत अनुभव होते और संगमयुग के बाद सतयुग जल्दी आता है, इसलिए संगमयुग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम का दे देते हैं।”

(अ.वा. 21.10.87 पृ.94 अंत) • “कितने भी कारण हों- मैं निवारण करने वाली हूँ न कि कारण को देख कमजोर बनना है।... इसको विजयी कहा जाता। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात् लक्षण वाली।” (अ.वा. 4.3.72 पृ.239 अंत) • “लक्ष्मी स्वरूप अर्थात् धन-देवी और नारायण स्वरूप अर्थात् राज्य अधिकारी। लक्ष्मी को धन-देवी कहते हैं। वो धन नहीं; लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं उस धन की देवियाँ।” (अ.वा. 21.01.80 पृ.231 मध्य) • “लक्ष्मी अर्थात् सम्पत्ति की देवी। वह स्थूल सम्पत्ति नहीं, नॉलेज की सम्पत्ति, शक्तियों रूपी सम्पत्ति की देवी अर्थात् देने वाली।... चाहे नॉलेज देवे, चाहे शक्तियाँ देवे।” (अ.वा. 23.1.76 पृ.20 आदि)

• “टीचर को भी सबक देना है। खिर होना चाहिए। कोई भी कुछ कहेगा नहीं। फिर भी बाप के बने तो पेट भर तो मिल सकता है। शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। अहमदाबाद में वेदान्ती बच्ची है। उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक प्वॉइण्ट थी गीता का भगवान कौन? इसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया, इनको नापास कर दिया। और जिन्होंने कृष्ण भगवान लिखा उनको पास कर दिया। जिस बच्ची ने सच बताया तो उनको ना जानने कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े। मैंने तो यह सच लिखा है। गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। कृष्ण, जो देहधारी है वो तो हो ना सके। परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की तो छोड़ दिया। नहीं तो ऐसी-2 बातों में तुम लड़ो तो नाम बाला हो जावे। गवर्मेंट कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है।” (मु. 7.7.70 पृ.2 मध्य)

• “दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनकी पूजा कर फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी। युगल है ना। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते। लक्ष्मी को पैसा कहाँ से मिलेगा। युगल तो चाहिए ना। तो है युगल। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं।” (मु. 14.10.68 पृ.2 मध्य)

• “दीपमाला पर लक्ष्मी का आवाह करते हैं क्यों? नारायण ने क्या गुनाह किया। लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना। वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता। धन तो जगतअम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगतअम्बा वो ही फिर श्रीलक्ष्मी बनती है तो उन्होंने अलग-2 कर दिया है।” (मु. 14.10.73 पृ.3 मध्यांत)

• “हे सत्यभामा, हे कर्मादेवी! तुम क्या करती हो? जब तक औरों को स्वर्गवासी न बनाया है तो स्वर्ग में कैसे जावेंगे! बस, ऐसे ही बैठे हो। कौड़ी से हीरे जैसा साहुकार बनाना, यह बाप का

धंधा बच्चों को भी करना चाहिए ना ! भारत को हीरे जैसा पावन बनाओ । ” (मु.14.7.63 पृ.2 मध्य)

- “तो अब खड़ा होना चाहिए । ऐसे शंकराचार्य की सेना पर जीत पहननी है । ऐसे थोड़े ही घर में चुप कर बैठने से जीत पहनेंगे । झुण्डों में (घु)स जाना है । उनको समझाना है । इसमें हिम्मत चाहिए ना । ” (मु.14.7.63 पृ.2 अंत)
- “अरे ,बंधन को तो तोड़ना पड़े ना ! समझाना है, हमको तो सर्विस पर जाना है । कौरवों की माझ्यों और पाण्डवों की माझ्याँ की भेंट करो । वो हैं हिसक; तुम अहिसक । वो कितनी फुर्त हैं, बाहर जाकर लेक्चर आदि करती हैं । तुम तो वो ही जैसी गृहस्थी रीढ़-बकरियाँ हो । ज्ञान-योगबल से समझाना तो है ना ! बंधन करते-2 रह जावेंगी । सर्विस कहाँ की ? प्रजा कहाँ बनाती हो ? ” (मु.14.7.63 पृ.2 अंत,पृ.3 आदि)
- “शेरनी शक्तियों की तो शेर पर सवारी दिखाई है । शेर बहादुर होता है । तुम रीढ़-बकरी तो नहीं हो ना । शेर सदा गजगोर करते हैं । तुम भी ज्ञान गजगोर करते हो । जो बादल नहीं बनते , वह क्या महारानी-महाराजा बनेंगे ? ” (मु.14.7.63 पृ.4 मध्यादि)

वो भारतमाता शिवशक्ति अवतार । उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब होगा तो सब उसको फॉलो करेंगे । सारे ब्राह्मण परिवार में जो भी श्रेष्ठ आत्माएँ हैं, योरिटी को विशेष महत्व देने वाली आत्माएँ हैं वो उसके पीछे-2 चल पड़ेंगी ।

तो क्या भारतमाता का ही गायन है? भारतमाता है तो क्या वो माता विधवा थी क्या? पिता नहीं था क्या? भारतीय परम्परा में तो विधवा की पूजा नहीं होती, विधवा को तो हेय दृष्टि से देखा जाता है । भारत में तो खास ‘वन्दे मातरम् और जय माता दी’ की ध्वनि लगाते हैं, देवी जागरण करते हैं तो माता ही माता, जैसे पिता होता ही नहीं । लेकिन नहीं, माता है तो पिता जरूर पीछे से छलछाया के मुआफिक होगा । हाँ, शक्तियों को बाबा ने आगे जरूर किया है । बाबा खुद पीछे प्रत्यक्ष होना चाहता और शक्तियों को आगे प्रत्यक्ष करना चाहता । • “शिव भगवानुवाच माताएँ स्वर्ग का द्वार खोलती हैं ।... इसलिए वंदे मातरम् गाया जाता है । वन्दे मातरम्, तो पिता भी अण्डरस्टुड है । ” (मु.10.6.69 पृ.2 अंत) इस आधार पर वो भारतमाता है तो उसके साथ पिता भी जरूर है और वो पिता सिर्फ भारत का पिता नहीं, वो तो विश्व का पिता होता है; क्योंकि माता तो घर सम्भालती है और बाप बाहर भी सम्भालता है, घर भी सम्भालता है । वो विश्व का पिता है; क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु बनता है ना ! तो ब्रह्मा सो विष्णु वो तो भारत की माता है । विदेशी लोग गॉडमदर को नहीं मानते, गॉडफादर को मानते हैं । भारत के

लोग गॉडमदर को भी मानते हैं। ‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव’- पिता को भी मानते हैं। हमारा भारतवर्ष है ही प्रवृत्तिमार्ग का देश। यहाँ प्रवृत्ति को मानने वाला देवी-देवता सनातन धर्म पनपा है। उसका फाउंडेशन जमाने के लिए वो पिता पहले से ही उन शक्तियों के द्वारा वो पुरुषार्थ कराने वाला मौजूद होता है। जिससे वो भारतमाता बनकर संसार में प्रत्यक्ष होती हैं और वो पिता है- रुद्रमाला का हेड, जिसे कहते हैं- ‘शंकर’। रुद्रमाला के हेड शंकर के लिए शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि वो विष तो पीता था, विकारी तो उसको दिखाया गया; लेकिन विष कंठ में रुका हुआ था, उस विष का प्रभाव उनके अंदर नहीं हुआ। ऊपर से देखने की दृष्टि में अज्ञानियों के लिए तो वो विकारी है, कलंक को धारण करने वाला है, कलंकीधर है; लेकिन वास्तव में निष्कलंक है। तो वो भारत शब्द माता और पिता दोनों के लिए लागू होता है। ऐसे नहीं कि माता निर्विकारी हो गई तो पिता कोई विकारी था। यानी वो राम-सीता वाली आत्माएँ सन् 1976 से ही ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में ऐसा पुरुषार्थ करती हैं जो पुरुषार्थ वास्तव में गुह्यगति का पुरुषार्थ होता है; क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है-“शंकर क्या करते हैं? उनका पार्ट ऐसा वण्डरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको।” (मु.14.5.70 पृ.2 आदि)

आश्र्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्र्यवद्वदति तथैव चान्यः ।

आश्र्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वायेन वेद न चैव कश्चित् ॥ 2/29 गीता ॥

कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्र्य की तरह देखता है और दूसरा उसी प्रकार आश्र्य की ज्यों वर्णन करता है और दूसरा कोई इसको आश्र्य की तरह सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता।

शंकर का पार्ट वण्डरफुल है, पार्वती का पार्ट तो वंडरफुल नहीं होगा। वो तो सबको सहज ही समझ में आ जाएगा। इसलिए सब झट से फालो करने लग पड़ेंगे। शंकर के पार्ट में समझने में कुछ राज़ छिपा हुआ है। उस राजयोग की गहराई को जो आत्माएँ नं.वार समझेंगी वो सिर्फ 16000 गोप-गोपियाँ ही दिखाई जाती हैं। गोप-गोपिका का मतलब ही है गुप्त पुरुषार्थी। सारी दुनिया उस बात की गहराई को नहीं समझ सकेगी कि उन गोप-गोपिकाओं ने कैसा गुप्त सम्बंध उस परमात्मा के साथ जोड़ा था, जिसमें वो योगी भी था। गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी, भोगी जीवन में रहते हुए भी योगी कैसे था?

वो बात समझने की है कि ऐसे नहीं माता सीता सन् 1976 से निर्विकारी बनी और घोरिटी के आधार पर उसने अपनी यूनिटी तैयार की, शिवशक्तियों का संगठन तैयार हुआ।

भारतवर्ष में और विदेशों में भी इतनी ब्रह्माकुमार-कुमारियाँ जिन्होंने अपने जीवन को B.K. में अर्पण किया है, क्या उनमें से 108 शक्तियाँ ऐसी नहीं होंगी जो नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार पवित्रता के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हों? चलो 108 नहीं होंगी, एक तो 100% होगी। बाबा ने जो महावाक्य बोला है कि सन् 1976 में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है वो उसी एक शक्ति के लिए बोला है। कोई कहे प्रूफ? इस बात का प्रूफ है कि अगर उसमें प्योरिटी की भासना होगी तो उसकी यूनिटी भी सब ब्रह्माकुमारियों के मुकाबले सबसे जास्ती तीखी होगी। और-2 ब्रह्माकुमारियाँ ट्रांसफर होने से डरती हैं। पता नहीं दूसरी जगह जाकर हमारे प्योरिटी के आधार पर यूनिटी, संगठन बना या नहीं बना। इसलिए हम ट्रांसफर होना नहीं चाहते; लेकिन वो प्योरिटी की यूनिटी को बनाने वाली जो शक्ति है उसको कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाए, दुनिया के कोई भी देश-प्रदेश में, अफ्रीका जैसे हृष्णियों के देश में ही क्यों न डाल दिया जाए, फिर भी वो अपने प्योरिटी के आधार पर यूनिटी तैयार कर लेती है। यह प्रूफ है कि भारत के अंदर कोई एक ऐसी शक्ति है जो सन् 1976 से तैयार हो चुकी है। चैतन्य भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो चुका है। जब वो शक्ति है तो पिता भी जरूर है। हाँ, यह है कि एक होती है मन-बुद्धि की प्योरिटी और एक होती है स्थूल शारीरिक प्योरिटी। तो मन-बुद्धि की जो प्योरिटी है वो है नष्टोमोहा की प्योरिटी-‘नष्टोमोहा स्मृतिर्लब्धा’।

- “सहज नष्टोमोहा होना यह बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है।” (अ.वाणी 25.11.93 पृ.26 आदि)

बाबा कहते कि भल कोई भी कर्म करो; लेकिन बाप की याद होनी चाहिए, तो तुम्हारे कर्म भी अकर्म हो जाएँगे; लेकिन 100 परसेण्ट याद होनी चाहिए। अगर 99 परसेण्ट याद है और एक परसेण्ट भी अगर देहभान है तो उस कर्म का पाप जरूर बनेगा। बाबा ने तो मुरली में बोला है- “बाप विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे।” (मु. 29.4.70 पृ.1 मध्य)

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हृत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 18/17

जिस ज्ञानी को ‘मैंने किया है’ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती, वह इन कलियुगी पापी लोगों को मारकर भी नहीं मारता और न बंधनयुक्त होता है।

शंकर का तो पार्ट ही निराला है। है तो वो जगतपिता का पार्ट। ‘त्वम् आदिदेवः पुरुषः

पुराणः’ (गीता- 11/38) और ‘जगतं पितरं वंदे पार्वती परमेश्वरै’ कहा जाता है; लेकिन पार्वती के पार्ट को तो समझा जा सकता है। पार लगाने वाली को ही पार्वती कहा जाता है। वो पार्ट भी अंत में खुलता है। कहते भी हैं ‘छुपा रुस्तम बाद में खुले’।

10 वर्ष में विनाश की घोषणा

इस चित्र में 10 वर्ष की घोषणा का जो लास्ट प्वॉइण्ट है वो राइट है। यह झूठी बात नहीं है कि 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत नहीं हुआ। भारत शब्द जो है, वो बाबा ने राम-सीता वाली आत्माओं के लिए लागू किया है। इसका इशारा देने के लिए बाबा ने एक वाक्य भी बोला हुआ है- • “तुम कह सकते हो रामायण की कथा सारी भारत पर ही है। सिर्फ समझाने का खिर चाहिए।” (मु. 12.1.75 पृ.3 अंत) अरे! रामायण में सारी कथा राम-सीता अथवा राम-रावण के ऊपर है या भारत के ऊपर है? बाबा ने सिद्ध किया कि रामायण की कथा तो वास्तव में हीरो-हीरोइन के ऊपर ही होती है। विलियन के ऊपर तो नहीं होती। रामायण के हीरो-हीरोइन कौन हैं? राम-सीता। राम-सीता ही वास्तव में प्रवृत्तिमार्ग भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएँ हैं। मर्यादा के बारे में जब कोई मिसाल दिया जाता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरफ इशारा किया जाता है। कोई कहे कि यह कैसा तुम्हारा मर्यादा पुरुषोत्तम जो शास्त्रों में और चित्रों में विषपायी दिखाया गया है? उसका ऐसा चित्रण क्यों किया गया? वास्तव में यह भी एक रहस्य की बात है जो समझनी है और समझानी है। ओमशान्ति।

ॐ शांति

Contact Us

Address

A-351-352, Vijayvihar, Phase-1, Rithala, Delhi- 110085

Mobile - 9891370007, 9311161007

Email - a1spiritual1@gmail.com

Website – WWW.PBKS.INFO/ADHYATMIK-VIDYALAYA.COM

Youtube – ADHYATMIK-VIDYALAYA OR AIVV

Twitter - @adhyatmikaivv

Instagram - @adhyatmikvidyalaya

Linkedin – linkedin.com/company/adhyatmik-vidyalaya

01.01.2025